



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 29] नई दिल्ली, शनिवार, जुलाई 17-जुलाई 23, 2004 (आषाढ़ 26, 1926)  
No. 29] NEW DELHI, SATURDAY, JULY 17-JULY 23, 2004 (ASADHA 26, 1926)

इस भाग में निम्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।  
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

## भाग I—खण्ड 2

### [PART I—SECTION 2]

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अपरान्तों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि से संबंधित अधिसूचनाएं  
[Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

प्रधानमंत्री कार्यालय

नई दिल्ली-110011, दिनांक 28 जून 2004

सं० ए० 22017/3/2004-पीएमए—राज्य सभा सचिवालय के प्रधान निजी सचिव श्री बी० के० पंत की प्रधान मंत्री के वैयक्तिक स्टाफ में वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव के रूप में नियुक्ति संबंधी दिनांक 4-6-2004 की समसंख्यक अधिसूचना एतद्वारा रद्द की जाती है।

रोहित खेड़ा, विशेष कार्याधिकारी

दिनांक 30 जून 2004

सं० ए० 22017/4/2004-पीएमए—राष्ट्रपति जी, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग के केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा संवर्ग के निजी सचिव श्री जी० सी० उपाध्याय को दिनांक 22 मई, 2004 के पूर्वानु से रु० 6500-200-10500 के वेतनमान में प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री श्री पृथ्वीराज चव्हाण के सहायक निजी सचिव के रूप में नियुक्त करते हैं।

2. वैयक्तिक स्टाफ में श्री जी० सी० उपाध्याय की नियुक्ति राज्य मंत्री, प्रधानमंत्री कार्यालय के कार्यालय तक तथा उनके विवेकाधीन होगी।

रोहित खेड़ा, विशेष कार्याधिकारी

दिनांक 01 जुलाई 2004

सं० ए० 22012/1/2004-पीएमए—श्री एम० अर० रेड्डी, आई० पी० एस० (महाराष्ट्र : 67) (सेवा-नियुक्त) ने दिनांक 30 जून, 2004 के अपरान्त से प्रधानमंत्री कार्यालय में विशेष कार्याधिकारी के पद का कार्यभार छोड़ दिया है।

रोहित खेड़ा, विशेष कार्याधिकारी

राज्य सभा सचिवालय

नई दिल्ली, दिनांक 15 जून 2004

सं० अर० एस०/6(iii)/2004/33-कमि—श्री राघवेंद्र सिंह (भारतीय प्रशासनिक सेवा, पश्चिमी बंगाल, 1983) को

राज्य सभा सचिवालय में राज्य सभा में विपक्ष के नेता के वैयक्तिक स्टाफ में 18400-500-22400 रुपये के वेतनमान में 4 जून, 2004 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक राज्य सभा में विपक्ष के नेता के सचिव के रूप में स्थानापन्न रूप से कार्य करने के लिए नियुक्त किया गया है।

2. श्री रामवेन्द्र सिंह की नियुक्ति राज्य सभा में विपक्ष के वर्तमान नेता के स्वविवेकाधीन है और वह उनके कार्यकाल की समाप्ति के साथ ही समाप्त हो जायेगी।

प्र० रं० गुहाराय, उप सचिव

दिनांक 1 जुलाई, 2004

सं० आर०एस०/3(i)/2004/43-कार्मिक--राज्य सभा के माननीय सभापति ने राज्य सभा सचिवालय में संयुक्त सचिव श्री नरेश चन्द्र घोषी को इस सचिवालय में 1 जुलाई, 2004 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक अपर सचिव के रूप में स्थानापन्न रूप से कार्य करने के लिए नियुक्त करने की कृपा की है।

प्र० रं० गुहाराय, उप सचिव

सं० आर०एस०/6(ii)/2004/42-कार्मिक--राज्य सभा की माननीय उपसभापति के वैयक्तिक स्टाफ में सह-पदावसान के आधार पर विशेष कार्य अधिकारी के रूप में नियुक्त श्री जयन्त मिश्रा की सेवाएं 10 जून, 2004 से 30 दिन की समापन अवधि दिए जाने के पश्चात् 9 जुलाई, 2004 के अपराह्न से समाप्त हो जाएंगी।

प्र० रं० गुहाराय, उप सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 30 जून 2004

सं० आर०एस०/3(i)/2004/41-कार्मिक--श्री सतीश कुमार, के०स०के० (सेवा निवृत्त), जिन्हें दिनांक 1 जुलाई, 2002 की अधिसूचा सं० आर०एस०/2(i)/2002/41-कार्मिक के द्वारा राज्य सभा सचिवालय में अपर सचिव के रूप में दो वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त किया गया था, को 30 जून, 2004 के अपराह्न से कार्यमुक्त कर दिया गया है।

वनजा एन० सरता, संयुक्त सचिव

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली-110001, दिनांक 18 मई 2004

सं० पीएफ 2090(3)/जी एन-5167/ए एन-I/2004--श्री सैयद काफिल अहमद, सहायक निदेशक (लाडिस), जिन्हें दिनांक 7 अक्टूबर, 2003 की अधिसूचना सं० पीएफ 2090(3)/जीएन-5028/ए एन-I/2003 के द्वारा 12000-375-

16500 रु० के वेतनमान में तदर्थ आधार पर 3 अक्टूबर 2003 से उप निदेशक (लाडिस) के रूप में नियुक्त किया गया था, को दिनांक 30 अप्रैल 2004 (अपराह्न) से 10000-325-15200 रु० के वेतनमान में सहायक निदेशक (लाडिस) के पद पर प्रतिवर्तित किया जाता है।

आनन्द बी० कुलकर्णी, संयुक्त सचिव

सं० पीएफ 2091(3)/जीएन-5168/ए एन-I/2004--कृषि और सहकारिता विभाग, कृषि मंत्रालय में प्रतिनियुक्ति से प्रतिवर्तन के पश्चात् डॉ० डी० के० सिंह ने 30 अप्रैल, 2004 के अपराह्न से इस सचिवालय में 12000-375-16500 रु० के वेतनमान में उप निदेशक (लाडिस) का कार्यभार संभाल लिया है।

आनन्द बी० कुलकर्णी, संयुक्त सचिव

दिनांक 19 मई, 2004

सं० पीएफ 1526(3)/जी एन-5171/एएन-1/2004--अध्यक्ष महोदय, 7450-11500 रु० के वेतनमान में कार्यरत श्रीमती उषा भाटिया, वरिष्ठ वैयक्तिक सहायक को 8000-275-13500 रु० के वेतनमान में निजी सचिव के ग्रेड में 18 मई, 2004 से अगले आदेशों तक सहर्ष नियुक्त करते हैं।

2. वह निजी सचिव के ग्रेड में 18 मई, 2004 से 17 मई, 2006 तक दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रहेंगी।  
3. उनकी निजी सचिव के ग्रेड में परस्पर वरिष्ठता 20 दिसम्बर, 2003 के आर एण्ड सी एस आदेश सं० पी डीए-1076/2003 में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार विनियमित होगी।

आनन्द बी० कुलकर्णी, संयुक्त सचिव

दिनांक 3 जून, 2004

सं० पीएफ 3857(3)/जीएन 5190/ए एन-I/2004--लोक सभा सचिवालय में प्रतिनियुक्ति के आधार पर निदेशक (लाडिस) के पद पर नियुक्त श्री सतीश एम० गवई, आई० ए० एस० (महा०:84) 3 जून, 2004 के आरह्न से कार्यमुक्त हो गए हैं और तत्पश्चात् उनको सेवाएं मुख्य सचिव, महाराष्ट्र सरकार, मुम्बई को सौंपी जाती हैं।

आनन्द बी० कुलकर्णी, संयुक्त सचिव

मंत्रिमंडल सचिवालय

नई दिल्ली, दिनांक 1 जुलाई 2004

सं ए-19011/01/2002--प्रशा० 1-विनिवेश विभाग में सचिव के रूप में नियुक्ति के परिणामस्वरूप श्री आर० पूर्णालिगम, भा० प्र० से० (तर्मिनल नं०:70), अपर सचिव

ने 30 जून, 2004 के अपराह्न से मंत्रिमंडल सचिवालय में अपर सचिव का पद भार छोड़ दिया है।

ए० मोहनन, अपर सचिव

#### अन्तरिक्ष विभाग

बेंगलूर-560094, दिनांक 22 जून 2004

सं० 8/1/2/2002—VI(1)—श्री एस० वी० रंगनाथ, भारतीय प्रशासनिक सेवा (कर्नाटक : 75) ने अपने प्रत्यावर्तन के परिणामस्वरूप, दि० 22 जून, 2004 के अपराह्न से अन्तरिक्ष विभाग में संयुक्त सचिव के पद का कार्यभार छोड़ दिया है।

के० एस० रामचन्द्र, उप सचिव

#### योजना आयोग

नई दिल्ली, दिनांक 24 जून 2004

सं० एफ० 6 (1889)/2003-प्रशासन—1—कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 18 जून, 2004 के पत्राचार सं० 27/23/2004-ई ओ (एस एम 1) के अनुपालन में डॉ० कमल तीड़ी, आई० ए० एस० (उत्तरांचल : 68), सलाहकार, योजना आयोग की भारत सरकार के अपर सचिव के रूप में केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति की अवधि को दिनांक 19 जून, 2004 से आगे दो माह के लिए बढ़ाया जाता है।

टी० आर० मीणा, निदेशक (प्रशासन)

सं० एफ० 6 (1902)/2004-प्रशासन-1—योजना आयोग के दिनांक 17 जून, 2004 के अधिसूचना सं० ए-43011/23/2004-प्रशासन-1 के अनुपालन में डॉ० कीरित एस० पारिख ने दिनांक 21-6-2004 (अपराह्न) से योजना आयोग में सदस्य का कार्यभार संभाल लिया है।

टी० आर० मीणा, निदेशक (प्रशासन)

दिनांक 29 जून 2004

सं० एफ० 6 (1905)/2004-प्रशासन-1—योजना आयोग के दिनांक 17 जून, 2004 के अधिसूचना सं० ए-43011/23/2004-प्रशासन-1 के अनुपालन में डॉ० (श्रीमती) सईदा हमीद ने दिनांक 28-6-2004 (पूर्वाह्न) से योजना आयोग में सदस्य का पदभार संभाल लिया है।

टी० आर० मीणा, निदेशक (प्रशासन)

नई दिल्ली, दिनांक 5 जुलाई 2004

सं० एफ० 6 (1741)/98-प्रशासन-1—योजना आयोग के दिनांक 17 जून, 2004 के अधिसूचना सं० ए-43011/23/2004-प्रशासन-1 के अनुपालन में श्री मोटेक सिंह अहलुवालिया

ने दिनांक 4-7-2004 (पूर्वाह्न) से योजना आयोग में उपस्थित का पदभार संभाल लिया है।

डी० के० शर्मा, निदेशक (सा० प्र०)

सं० एफ० 6 (1903)/04-प्रशासन-1—योजना आयोग के दिनांक 17 जून, 2004 के अधिसूचना सं० ए-43011/23/04-प्रशासन-1 के अनुपालन में डॉ० बी० एल मुण्णैकर ने दिनांक 05-07-04 (पूर्वाह्न) से योजना आयोग में सदस्य का पदभार संभाल लिया है।

डी० के० शर्मा, निदेशक (सा० प्र०)

सं० एफ० 6 (1908)/04-प्रशासन-1—योजना आयोग के दिनांक 17 जून, 04 के अधिसूचना सं० ए-43011/23/04-प्रशासन-1 के अनुपालन में प्रोफेसर अभिजित सेन ने दिनांक 02-07-04 (अपराह्न) से योजना आयोग में सदस्य का पदभार संभाल लिया है।

डी० के० शर्मा, निदेशक (सा० प्र०)

#### (राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग सचिवालय)

नई दिल्ली-110001, दिनांक 15 जून 2004

सं० ए-43011/17/01-एन० सी० पी०—राष्ट्रपति जी श्री वी० अशोकन की राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग में, रु० 18400-22400/- के वेतनमान में प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति की अवधि 06-02-04 से 31-07-04 तक अगले आदेश होने तक जो भी पहले हो बढ़ाते हैं।

राज कुमार परमार, अपर सचिव (रा० ज० आयोग)

#### सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

नई दिल्ली-1, दिनांक 16 जून 2004

सं० 12014/1/2003-भा० सा० से०—राष्ट्रपति, भारतीय सांख्यिकीय सेवा (1991, 1992, 1995, 1997, 1998 तथा 1999 में हुई सीवी भर्ती परीक्षा) के निम्नलिखित अधिकारियों को, निम्न रूप से दर्शाए गए अनुसार सेवा के ग्रेड IV में मूल रूप में नियुक्त करते हैं :—

क्रम सं०	नाम	निम्नलिखित तारीख से प्रभावी
1	2	3
<b>XIX बैच (आई एस एस परीक्षा 1991)</b>		
1.	सुश्री स्नेह लता सेठी	14-9-1999
<b>XX बैच (आई एस एस सेवा परीक्षा, 1992)</b>		
1.	श्रीमती पाली कुंडु	20-1-1996
2.	श्रीमती प्रवीण सिंह (होरो)	20-1-1996
3.	श्री पी० मणिकम	20-1-1996
4.	श्री किशोर कुमार	20-1-1996

1	2	3	1	2	3
	श्री/श्रीमती/कु०				
5.	ज्योति प्रसाद आर्य	20-1-1996	20.	सुश्री एस० राधा	31-8-2000
6.	एम० एम० सिंह	20-1-1996	21.	अमित्र साहा	5-3-2001
7.	मदन लाल	20-1-1996	22.	सुश्री पी० ए० मिनी	31-8-2000
8.	राकुरी किरन कुमार	20-1-1996	23.	डी० सतीश	31-8-2000
<b>XXI बैच (आई एस एस परीक्षा, 1995)</b>			24.	दिनेश कुमार	30-11-2000
1.	भास्कर मिश्रा	21-9-1999	25.	रोशन लाल साहू	31-8-2000
2.	पी० भानुमती	26-5-2000	26.	तारक चन्द्र पात्रा	31-8-2000
3.	एस० के० मुखोपाध्याय	21-9-1999	27.	सुश्री एम० जी० जयश्री	31-8-2000
4.	राजेश भाटिया	21-9-1999	28.	सुश्री नवनीता गोगोई	31-8-2000
5.	श्रीमती सुनीता भास्कर	21-9-1999	29.	के० एस० रजीमोन	31-8-2000
6.	आर० राजेश	21-9-1999	30.	मधुसूदन एस० अदकी	31-8-2000
7.	मया प्रसाद	22-9-1999	31.	सत्यजीत पाल	31-8-2000
8.	के० मनाओ सिंह	21-9-1999	32.	पी० मनोज कुमार	31-8-2000
9.	श्रीमती रत्ना चौधरी	21-9-1999	<b>XXIII बैच (आई एस एस परीक्षा, 1998)</b>		
10.	अनिल डी० पाटिल	26-5-2000	1.	सुश्री संतोष	11-7-2001
11.	हरिहर मन्दन	26-5-2000	2.	बृजेंद्र सिंह	11-7-2001
(दिनांक 22-7-2002 से तकनीकी त्यागपत्र)			3.	सोम्या चक्रवर्ती	11-7-2001
<b>XXII बैच (आई एस एस परीक्षा, 1997)</b>			4.	पंकज कुमार श्रीवास्तव	11-7-2001
1.	संजीव कुमार गुप्ता	30-11-2000	5.	संजीव कुमार	11-7-2001
2.	अनुपम लालित्री	5-3-2001	6.	दिलीप कुमार सिन्हा	11-7-2001
3.	सुश्री एन० संगीता	31-8-2000	7.	ओंकार प्रसाद घोष	11-7-2001
4.	रोहित भारद्वाज	30-11-2000	8.	सुश्री ऋचा शंकर	11-7-2001
5.	प्रकाश चन्द लखचौरा	31-8-2000	9.	अतु कुमार चौधरी	11-7-2001
6.	सुश्री सुप्रिया बसु	31-8-2000	10.	सुश्री कंचन वैकटेश	11-7-2001
7.	सुश्री विष्मयी सच्चदेवा	19-10-2000	11.	राजेश कुमार शर्मा	11-7-2001
(दिनांक 31-8-2003 से तकनीकी त्यागपत्र)			12.	सुश्री बिन्दु एस० नैयर	11-7-2001
8.	डी० पी० श्रीवास्तव	26-3-2002	13.	सुनील कुमार भनावत	21-7-2001
9.	नीलान्जम चैटर्जी	31-8-2002	14.	सुश्री सुभा पी० टी०	11-7-2001
10.	चन्द्र शेखर मिश्रा	5-3-2001	15.	सुश्री रश्मि वर्मा	11-7-2001
11.	सुनील कुमार सिंह	31-8-2002	16.	नीरज कुमार श्रीवास्तव	11-7-2001
12.	सुनील प्रकाश	31-8-2000	17.	ई० नागचन्द्रन	11-7-2001
13.	सुश्री अनुजा बापत	30-11-2000	18.	सुश्री देवान्जना घोष	11-7-2001
14.	सुश्री अरुन्धती गांगुली	05-3-2001	19.	शंकरन साहू	11-7-2001
15.	अरिन्दम मोदक	31-8-2000	20.	साजी जार्ज	11-7-2001
16.	बिस्वजीत दास	31-8-2000	21.	राजेश पी० पाटिल	01-2-2002
17.	धृजेश कुमार तिवारी	5-3-2001	22.	सुश्री भावना	11-7-2001
18.	डी० आशुतोष ओझा	5-3-2001	23.	जुनैद फारुकी	11-7-2001
19.	सुश्री रीता जतना	31-8-2000	24.	राकेश कुमार मौर्य	11-7-2001

## (न्याय विभाग)

1	2	3
25. निमत कुमार टुडु		11-7-2001
XXIV बेंच (आई एस एस परीक्षा, 1999)		
1. सुश्री अंशु सिंह		22-11-2002
2. रजनीश माथुर		28-11-2002
3. अनन्दिता सिन्हाया		5-11-2002
4. सौरभ चक्रवर्ती		5-11-2002
5. सुश्री स्वतन्त्री भट्टाचार्य		28-11-2002
6. सुश्री सी० बीना जोस		5-11-2002
7. जगतप राहुल सुभाष		28-11-2002
8. आनिन्द बैनर्जी		28-11-2002
9. एम० एस० सुब्रमण्य राव		5-11-2002
10. राजेश्वरी कस्तूरी		5-11-2002
11. अविनाश कुमार मिश्रा		5-11-2002
12. सजीव बसु		28-11-2002
13. सुश्री एस० लीना		5-11-2002
14. सुश्री दीप्ति श्रीवास्तव		28-11-2002
15. सुश्री वन्दना मल्होत्रा		28-11-2002
16. पंकज के० पाण्डेय श्रेयस्कर		28-11-2002
17. सैयद इकबाल शूजा नकवी		28-11-2002
18. गंगा कुमार		28-11-2002
19. कमल कांत नाथ		28-11-2002
20. चंद्र दीप कुमार झा		5-11-2002
21. आलोक कुमार वर्मा		19-11-2002
22. वैक्कटरमण अर० हैज		28-11-2002
23. हंसराज यादव		5-11-2002
24. पी० पलनिवल		28-11-2002

ए० के० सक्सेना, संयुक्त सचिव

## विधि और न्याय मंत्रालय

## (विधायी विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 25 जून 2004

सं० ए० 12025(i)/2(ए)/2002-प्रशा०-I (वि०वि०)---  
संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिश पर, राष्ट्रपति, विधि एवं न्याय मंत्रालय, विधायी विभाग के विधि साहित्य प्रकाशन में उप-संपादक सुश्री उपमा माथुर को 25 जून, 2004 के पूर्वानु-  
से अगले आदेशों तक विधि एवं न्याय मंत्रालय, विधायी विभाग के राजभाषा खंड में रुपये 10,000-325-15,200 के वेतन-  
मान में सहायक विधायी परामर्शी (हिन्दी शाखा) के रूप में कार्य करने हेतु सहर्ष नियुक्त करते हैं।

एम० दास, उप सचिव

नई दिल्ली-110 011, दिनांक 24 जून 2004

सं० के० 13032/1/2004-यू०एस०-II--राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 217 की धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उत्तरांचल उच्च न्यायालय के अपर न्यायाधीश न्यायविद् श्री राजेश टंडन को उस तारीख से, जब वह अपना कार्यभार ग्रहण करते हैं, उत्तरांचल उच्च न्यायालय का न्यायाधीश, सहर्ष नियुक्त करते हैं।

के० गुट्टू, निदेशक (न्याय)

दिनांक 28 जून 2004

सं० के० 13032/5/2003-यू० एस० II--राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 224 की धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए (1) श्री विपिन चन्द्र कान्ढपाल, (2) श्री जीवन चन्द्र सिंह रावत और (3) श्री प्रफुल्ल चन्द्र पन्त को उसी वरीयता क्रम में, उस तारीख से, जब वे अपना-अपना कार्यभार ग्रहण करेंगे, दो वर्ष की अवधि के लिए उत्तरांचल उच्च न्यायालय के अपर न्यायाधीश सहर्ष नियुक्त करते हैं।

के० गुट्टू, निदेशक (न्याय)

दिनांक 29 जून 2004

सं० के० 13023/1/2004-यू० एस० II--राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 217 की धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के अपर न्यायाधीश (i) न्यायविद् श्री अरविन्द कुमार अवस्थी, और (ii) न्यायविद् श्री अशोक कुमार तिवारी को उसी वरीयता क्रम में, उस तारीख से, जब से वे अपना कार्यभार ग्रहण करेंगे, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में न्यायाधीश, सहर्ष नियुक्त करते हैं।

के० गुट्टू, निदेशक (न्याय)

सं० 13025/4/2003-यू०एस०-II--राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 224 की धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री रघुनाथ विश्वाल को, उस तारीख से, जब से वे अपना कार्यभार ग्रहण करेंगे, दो वर्ष की अवधि के लिए उड़ीसा उच्च न्यायालय में अपर न्यायाधीश सहर्ष नियुक्त करते हैं।

के० गुट्टू, निदेशक (न्याय)

सं० के० 13025/5/2003-यू०एस०-II--राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 224 की धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री अरून कुमार परीछा को, उस तारीख से, जब से वे अपना कार्यभार ग्रहण करेंगे, दो

वर्ष की अवधि के लिए उद्घोषित उच्च न्यायालय में अपर न्यायाधीश सहर्ष नियुक्त करते हैं।

क० गृह, निदेशक (न्याय)

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 02 जुलाई 2004

शुद्धि पत्र

सं० I-18011/3/2002-प्रशा०-IV—इस मंत्रालय के दिनांक 30-5-2002 की अर्द्धसहस्रक अधिसूचना में श्री नवीन अरोड़ा, आई०पी० सं० (उ० प्र० : 97) के संबंध में भारतीय पुलिस सेवा में स्थायीकरण की तारीख 15-9-1999 के स्थान पर 25-8-1999 पढ़ी जाए।

जे० वी० कौशिश, डेस्क अधिकारी

नई दिल्ली, दिनांक 5 जुलाई 2004

सं० 20/जी/2532-प्रशा० 1—राष्ट्रपति, श्री धीरेन्द्र सिंह, भा० प्र० सं० (महाराष्ट्र : 68) को गृह मंत्रालय में सचिव के रूप में दिनांक 1 जुलाई, 2004 के अपराह्न से अगले आदेशों तक के लिए नियुक्त करते हैं।

2. राष्ट्रपति, श्री धीरेन्द्र सिंह को साथ ही न्याय विभाग में भी सचिव के रूप में नियुक्त करते हैं।

एस० के० भटनागर, अवर सचिव

सं० 20/जी/2579-प्रशा० 1—राष्ट्रपति, श्री धनपम दासगुप्ता, भा० प्र० सं० (महाराष्ट्र : 70) को गृह मंत्रालय में सचिव, राजभाषा विभाग के रूप में दिनांक 1 जुलाई, 2004 के पूर्वाह्न से अगले आदेशों तक के लिए नियुक्त करते हैं।

एस० के० भटनागर, अवर सचिव

सं० 20/जी/2576-प्रशा० 1—राष्ट्रपति, श्री अशोक कुमार रस्तोगी, भा० प्र० सं० (तमिलनाडु : 68) को गृह मंत्रालय में सचिव (वै० प्र०) के रूप में दिनांक 1 जुलाई, 2004 के पूर्वाह्न से अगले आदेशों तक के लिए नियुक्त करते हैं।

एस० के० भटनागर, अवर सचिव

दिनांक 6 जुलाई, 2004

सं० ए-11013/2/2004-प्रशा० 1—राष्ट्रपति, श्री असीम गुप्ता, भा० प्र० सं० (महाराष्ट्र : 94) को गृह मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री जगदीशराव गावित) के निजी सचिव के रूप में उप सचिव के स्तर (रु० 12,000-16,500/-) पर दिनांक 29-6-2004 के पूर्वाह्न से नियुक्त करते हैं।

2. श्री असीम गुप्ता की नियुक्ति पांच वर्षों के लिए अर्थात् 28-6-2009 तक राज्यमंत्री (श्री जगदीशराव गावित) के निजी सचिव के रूप में कार्य करने तक अथवा

अगले आदेशों के होने तक, इनमें से जो भी पहले हो, के लिए होगी।

एस० के० भटनागर, अवर सचिव

सं० ए-11013/3/2004-प्रशा० 1—राष्ट्रपति, डॉ महेश शुक्ला, भा० प्र० सं० (महाराष्ट्र : 90) को केन्द्रीय गृह मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) के निजी सचिव के रूप में निदेशक के स्तर (रु० 14,300-18300/-) पर दिनांक 1 जुलाई, 2004 के अपराह्न से नियुक्त करते हैं।

2. डॉ महेश शुक्ला की नियुक्ति पांच वर्षों के लिए अर्थात् 1-7-2009 अथवा केन्द्रीय गृह मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) के निजी सचिव के रूप में कार्य करने तक अथवा अगले आदेशों के होने तक, इनमें से जो भी पहले हो, के लिए होगी।

एस० के० भटनागर, अवर सचिव

अन्तर्राज्य परिषद सचिवालय

नई दिल्ली, दिनांक 28 जून, 2004

सं० ए-19011/3/2004-अ० रा० प०—राष्ट्रपति, श्री वर्षानिकान्ती जाना को 23 जून, 2004 पूर्वाह्न से अगले आदेशों तक अन्तर्राज्य परिषद सचिवालय, गृह मंत्रालय में निदेशक के पद पर सहर्ष नियुक्त करते हैं।

सुधीर कुमार, उप सचिव

(राजभाषा विभाग)

नई दिल्ली-3, दिनांक 1 जुलाई, 2004

सं० 13011/10/2003-रा० भा० (नी० सं०)—राष्ट्रपति, श्रीमती किरन सक्सेना, संयुक्त निदेशक (तदर्थ) को राजभाषा विभाग के अधीनस्थ कार्यालय, केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो में संयुक्त निदेशक के पद पर रु० 12,000-375-16,500/- के वेतनमान में दिनांक 1-7-2004 के पूर्वाह्न से पदोन्नति के आधार पर सहर्ष नियुक्त करते हैं।

बृजमोहन सिंह नेगी, निदेशक

नागरिक सुरक्षा महानिदेशालय

नई दिल्ली, दिनांक 04 जून 2004

सं० ए-11016/2/2004-डी० जी० सी० डी० (स्था०) राष्ट्रपति, राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा कालेज, नागपुर, महाराष्ट्र में सहायक के पद पर कार्यरत, श्रीमती वैशाली एम० मेशरम को दिनांक 16 मार्च, 04 (पूर्वाह्न) से पदोन्नति के परिणामस्वरूप राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा कालेज, नागपुर, महाराष्ट्र में 6500-200-10500 रु० के वेतनमान में अगले आदेश होने तक

स्थानापन्न आधार पर प्रशासनिक अधिकारी के रूप में सहव नियुक्त करते हैं।

ओम प्रकाश, अग्निशमन सलाहकार एवं कार्यालयध्यक्ष

हैदराबाद न्यायपीठ में दायर ओ० ए० संख्या 60/2004 के परिणाम के अधीन होगी।

परमा नन्द, अवर सचिव

कार्मिक, लोक-शिकायत और पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 28 जून 2004

सं० 14015/01/2003-अ० भा० से० (I)-क--भारतीय प्रशासनिक सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1955 के विनियम 7 के उपविनियम (3) में विहित उपबंधों के अनुसार संध लोक सेवा आयोग ने, भारतीय प्रशासनिक सेवा के आन्ध्र प्रदेश संवर्ग में वर्ष, 2002 के दौरान हुई तीन (3) रिक्तियों को भरने हेतु चयन समिति द्वारा 2 अप्रैल, 2002 को आयोजित अपनी बैठक में तैयार की गई आन्ध्र प्रदेश राज्य के राज्य सिविल सेवा के निम्नलिखित अधिकारियों के नाम वाली वर्ष, 2002 की प्रवर सूची अनुमोदित कर दी है :-

क्रम सं०	अधिकारी का नाम	जन्मतिथी
1.	श्री बी० श्रीधर	20-08-1964
2.	श्री बी० रामैया	05-07-1951
3.	श्रीमती अनिता राजेन्द्र	04-02-1963

आन्ध्र प्रदेश के लिए 2002 की प्रवर सूची में उपर्युक्त अधिकारियों के नाम, श्री जी० एस० आर० के० आर० विजयकुमार तथा श्री बी० श्रीधर द्वारा केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण की हैदराबाद न्यायपीठ में दायर ओ० ए० सं० 60/2004 के परिणाम के अधीन शामिल किए गए हैं।

परमा नन्द, अवर सचिव

सं० 14015/01/2003-अ० भा० से० (I)-ख-- भारतीय प्रशासनिक सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1955 के विनियम 9 के उप विनियम (1) तथा भारतीय प्रशासनिक सेवा (परिबीक्षा) नियम, 1954 के नियम 3 के साथ पठित, भारतीय प्रशासनिक सेवा (भर्ती) नियम, 1954 के नियम 8 के उप नियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति, आन्ध्र प्रदेश राज्य-सिविल सेवा संवर्ग के (1) श्री बी० श्रीधर, (2) श्री बी० रामैया तथा (3) श्रीमती अनिता राजेन्द्र को भारतीय प्रशासनिक सेवा में परिबीक्षा पर, अगले आदेशों तक तत्काल प्रभाव से नियुक्त करते हैं और उन्हें भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) नियम, 1954 के नियम 5 के उप-नियम (1) के अधीन आन्ध्र प्रदेश राज्य संवर्ग में आवंटित करते हैं।

उपर्युक्त नियुक्तियां, आन्ध्र प्रदेश राज्य सिविल सेवा के अधिकारियों श्री जी० एस० आर० के० आर० विजयकुमार तथा श्री बी० श्रीधर द्वारा केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण की

नई दिल्ली, दिनांक 2 जुलाई 2004

संख्या-32013/8/2004-प्रशासन-I--राष्ट्रपति, श्री अनुग्रह नारायण तिवारी, भारतीय प्रशासनिक सेवा (आंध्र प्रदेश : 69) को 01 जुलाई, 2004 (पूर्वाह्न) से अगले आदेशों तक, कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में सचिव के रूप में नियुक्त करते हैं।

वी० के० वेलुकुट्टी, अवर सचिव

संख्या-32013/9/2004-प्रशासन-I--राष्ट्रपति, श्री बादल के० दास, भारतीय प्रशासनिक सेवा (मध्य प्रदेश : 72) को 30 जून, 2004 (अपराह्न) से अगले आदेशों तक, कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में स्थापना अधिकारी एवं अपर सचिव के रूप में नियुक्त करते हैं।

वी० के० वेलुकुट्टी, अवर सचिव

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 14 जून 2004

सं० 38 : (फा० सं० ए० 50/46/2003-प्रशा० I)-- इस विभाग की दिनांक 17-5-2001 की अधिसूचना सं० 29 के क्रम में राष्ट्रपति, श्री जगमोहन सिंह, अनुभाग अधिकारी (के० सा० से०) की राजस्व विभाग में वरिष्ठ विश्लेषक (प्रति अदायगी) के रूप में प्रतिनियुक्ति अवधि को दिनांक 20-4-2004 (पूर्वाह्न) से 19-4-2005 (अपराह्न) तक एक वर्ष की अवधि के लिए तथा अगले आदेश होने तक आगे बढ़ते हैं।

प्रीति पन्त, अवर सचिव

दिनांक 15 जून 2004

सं० 39 (फा० सं० ए० 19012/5/2004-प्रशा० I)-- भारत के राष्ट्रपति, श्री ए० के० सिन्हा, भारतीय सीमा शुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क सेवा (90) को दिनांक 9-6-2004 (पूर्वाह्न) से चार वर्षों की अवधि के लिए अथवा अगले आदेश होने तक, जो भी पहले घटिया हो, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग के अधीन केन्द्रीय अधिष्ठित आयुक्ता बारी में सहायक महा-निदेशालय (उप सचिव के कार पर) के रूप में नियुक्त करते हैं।

प्रीति पन्त, अवर सचिव

दिनांक 16 जून 2004

सं० 35 : (फा० सं० ए 19011/6/2004-प्रशा०-I) — भारत के राष्ट्रपति, श्री परमेश्वर सिंह, (भारतीय राजस्व सेवा : 1968) को दिनांक 7-6-2004 (पूर्वाह्न) से और अगले आदेशों तक वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग में सदस्य, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड और भारत सरकार के पदेन अपर सचिव के रूप में नियुक्त करने हैं।

प्रीति पन्त, अपर सचिव

सं० 34 : (फा० सं० ए 19011/8/2004-प्रशा०-I) — भारत के राष्ट्रपति, श्री एम० के० जैन (भारतीय राजस्व सेवा : 1968) को दिनांक 7-6-2004 (पूर्वाह्न) से और अगले आदेशों तक वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग में सदस्य, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड और भारत सरकार के पदेन अपर सचिव के रूप में नियुक्त करने हैं।

प्रीति पन्त, अपर सचिव

सं० 40 : (फा० सं० ए 19014/1/2002-प्रशा०-I) — भारत के राष्ट्रपति, श्री परमेश्वर सिंह, जो वर्तमान में राजस्व विभाग में (वर्तमान आधार पर) अनुभाग अधिकारी के रूप में कार्य कर रहे हैं और केन्द्रीय सचिवालय सेवा के वित्त संवर्ग के निधमित सहायक हैं उन्हें वरिष्ठता कोटा के प्रति वर्ष 2001 की के० सं० से० के अनुभाग अधिकारी ग्रेड में चयन सूची में उनका नाम शामिल करने के परिणामस्वरूप, दिनांक 14-06-2004 (पूर्वाह्न) से और अगले आदेश होने तक, राजस्व विभाग में विहित आधार पर अनुभाग अधिकारी के रूप में नियुक्त करने हैं।

प्रीति पन्त, अपर सचिव

(आर्थिक कार्य विभाग)

बैंकिंग प्रभाग

नई दिल्ली, दिनांक 23 जून 2004

सं० 16/9/2003-जी.ए.टी.—ऋण वसूली अधिकरण, गुवाहाटी से भारतीय रिजर्व बैंक के पद पर तैनात श्री बी० जयदीप, स्टाफ अधिकारी, बैंक आफ इंडिया का देहान्त 12 जून, 2004 को हो गया है।

एम० के० मल्होत्रा, अपर सचिव

दिनांक 25 जून 2004

सं०-12/1/03-डी.आर.टी.—बैंकों एवं संस्थाओं को शोध्य ऋणों की वसूली अधिकरण, 1993 (1993 का 51) की धारा 11 के अन्तर्गत धारा 9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में निम्नलिखित, अर्थात्, चन्द्रशेखर प्रसाद कुमार देव, सेवानिवृत्त व्यापकीय व्यापक अधिकरण का उच्च न्यायालय,

पटना को 31-05-2004 (पूर्वाह्न) से पांच वर्ष की अवधि के लिए या 65 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने तक, इनमें से जो भी पहले हो, ऋण वसूली अधिकरण, इलाहाबाद में अध्यक्ष नियुक्त करती है।

एम० के० मल्होत्रा, अपर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 1 जुलाई 2004

सं० ए-19011/192/96-स्थापना—वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग, बैंकिंग प्रभाग में निदेशक, श्री जी० आर० सुमन, अधिवर्षिता की आयु प्राप्त कर लेने पर 30 जून, 2004 के अपराह्न से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो गए हैं।

डी० चौधरी, अपर सचिव

(विनिवेश विभाग)

नई दिल्ली-110003, दिनांक 01 जुलाई 2004

सं०-9(5)/2004-प्रशा०—भारतीय प्रशासनिक सेवा (तामिलनाडु : 1970) के अधिकारी श्री आर० पूर्णालिंगम ने 01 जुलाई, 2004 (पूर्वाह्न) को विनिवेश विभाग के सचिव के पद का पदभार ग्रहण कर लिया है।

एस० के० बन्दीपाध्याय, उपसचिव

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 24 जून 2004

सं० 20/2004 (सं० ए०-42011/6/2003-ई-1) — सम्मिलित सीमित विभागोपरी परीक्षा, 2002 के आधार पर अनुभाग अधिकारी ग्रेड की वर्ष 2002 की चयन सूची में जोड़े जाने के लिए कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा चयन किए जाने के परिणामस्वरूप राष्ट्रपति द्वारा श्रम मंत्रालय के संवर्ग में स्थायी सहायक श्री सुनील कुमार बिस्वास (अ० ज०) को 23 जून, 2004 (पूर्वाह्न) से वाणिज्य विभाग के संवर्ग में अनुभाग अधिकारी के ग्रेड में नियुक्त किया जाता है।

श्री सुनील कुमार बिस्वास, अनुभाग अधिकारी को स्टेट्स सेल में श्री बी० श्रोत्रि, सराफदार, अनुभाग अधिकारी के स्थान पर तत्काल प्रभाव से नियुक्त किया जाता है।

एस० के० तुली, उप सचिव

दिनांक 29 जून 2004

सं० 21/2004 (ए-19011/2/2002-ई-1) — राष्ट्रपति द्वारा वाणिज्य विभाग में सचिव के पद पर कार्यरत श्री दीपक चटर्जी आई० ए० एस० (पश्चिम बंगाल : 66) की सेवा को जनहित में 01 जुलाई, 2004 से 30 सितम्बर 2004 तक तीन महीने की अवधि के लिए बढ़ाया जाता है।

एस० के० तुली, उप सचिव



## बस्त मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 30 जून 2004

सं० 13/2004 (ए-45013/3/2003-स्था०)—श्री एन० बी० महापात्रा, आई०ए०एस० (ओ०आर०-67) सचिव, भारत सरकार, बस्त मंत्रालय, 30 जून, 2004 की अपराह्न से अतिवृष्टि की आगु प्राप्त करने पर सरकारी सेवा से सेवा-निवृत्त हुए।

अति भूषण, निदेशक

## कोयला और खान मंत्रालय

(कोयला विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 24 जून 2004

सं०ए-32015/1/98-प्रशा०—इस मंत्रालय की दिनांक 3-3-2004 की सम संख्याक अधिसूचना की निरंतरता में राष्ट्रपति जी, निम्नलिखित ग्रेड 'सी' आशुलिपिको (पी०ए०) को 6500-200-10500 रुपए के वेतनमान में निजी सचिव के पद पर 1-4-2004 से 30-6-2004 तक अथवा अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, पूर्णतया तदर्थ आक्षेप कर नियुक्त करते हैं :-

1. श्रीमति तसनीम टी० कारदार
2. श्रीमति विभा अत्री

उपर्युक्त प्रोन्नति एकदम तदर्थ आधार पर की जा रही है और यह तदर्थ प्रोन्नति उन्हें नियमित प्रोन्नति का कोई अधिकार प्रदान नहीं करेगी। तदर्थ प्रोन्नति को किसी भी सख्त रद्द करने और उन्हें आशुलिपिक ग्रेड 'सी' में लौटाने का अधिकार सरकार के पास आरक्षित है।

गार्गी मुखर्जी, निदेशक

नई दिल्ली, दिनांक 30 जून 2004

सं० ए-23021/1/2001-प्रशा०—राष्ट्रपति जी, इस विभाग की श्रीमति गीता मिश्रा, सहायक [वर्तमान में अनुभाग अधिकारी (तदर्थ)] को, उनका नाम अनुभाग अधिकारी ग्रेड की वर्ष 2001 की चयन सूची में समावेश किए जाने के परिणामस्वरूप, 13 मई, 2004 से नियमित आधार पर 6500-200-10500 रुपए के वेतनमान में अनुभाग अधिकारी के पद पर सहर्ष नियुक्त करते हैं।

पार्वती कौटिया, अवर सचिव

## भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय

(भारी उद्योग विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 29 जून 2004

सं०ए-19011/9/2004-प्रशा०—राष्ट्रपति, भारी उद्योग विभाग में श्री डी० आर० एस० चौधरी, भा०प्र०से० (म०प्र० : 77)

2-152 GI/04

को रु० 18400—22400 के वेतनमान में 17 मई, 2004 के पूर्वाह्न से पांच वर्षों की अवधि के लिए या आगामी आदेशों तक, जो भी पहले हो, संयुक्त सचिव नियुक्त करते हैं।

के० के० शर्मा, अवर सचिव

## लघु उद्योग मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 23 जून 2004

सं० ए-22011/1/2004-स्था०—राष्ट्रपति, श्री रमेश मंसह, भा० रा० से० (87) को लघु उद्योग मंत्रालय में दिनांक 23 जून, 2004 को पूर्वाह्न से पांच वर्ष की अवधि अथवा अगले आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो, निदेशक के रूप में नियुक्त करते हैं।

एच० आर० जोशी, अवर सचिव

## उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(उपभोक्ता मामले विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 18 जून 2004

फाइल सं० ए-11011/02/2004-प्रशासन—राष्ट्रपति, श्री अरविंद सिंह, भारतीय प्रशासनिक सेवा (महाराष्ट्र 88) को 26 मई, 2004 के पूर्वाह्न से केन्द्र में उनके कार्यकाल की शेष अवधि अर्थात् 1-4-2008 तक अथवा उनके मंत्री जी के निजी सचिव के पद से हट जाने तक या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार) के कार्यकाल पर्यन्त 14300-400-18300 रु० के वेतनमान (निदेशक स्तर का) में उनके निजी सचिव के पद पर नियुक्त करते हैं।

एस० के० नायक, अवर सचिव

दिनांक 29 जून 2004

सं० ए-12011/2/2004-प्रशा०—राष्ट्रपति, वायदा बाजार आयोग, मुम्बई में नियमित बाजार निगरानी अधिकारी श्री डी० डी० रायभोले को दिनांक 14-5-2004 के कार्यालय आदेश सं० 32014/1/2001-ए डी एम-1 द्वारा उनकी तदर्थ पदोन्नति पर 1 जून 2004 के पूर्वाह्न से एक वर्ष की अवधि अथवा पद के नियमित आधार पर भर लिए जाने तक, जो भी पहले हो, वायदा बाजार आयोग में पूर्णतः तदर्थ आधार पर 8000-275-13500/- रु० के वेतनमान में सहायक निदेशक (संवर्ग बाह्य) के पद पर नियुक्त करते हैं।

2. उक्त तदर्थ नियुक्ति से श्री डी० डी० रायभोले को सहायक निदेशक (संवर्ग बाह्य) के ग्रेड में नियमित नियुक्ति, वरिष्ठता आदि का करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होगा।

एस० के० नायक, अवर सचिव

## विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय

(विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग)

नई दिल्ली-110016, दिनांक 29 जून, 2004

सं० ए-12023/01/03-प्रशा० 1 (ए)—इस विभाग की दिनांक 14 मई, 2004 की समसंख्यक अधिसूचना के अनुक्रम में राष्ट्रपति, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा संवर्ग के निम्नलिखित स्थायी ग्रेड "सी" आशुलिपिकों की 6500-200-10,500/- रुपये के वेतनमान में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में निजी सचिव के रूप में 30-09-2004 तक अथवा नियमित चयन सूची अधिकारी के कार्यभार ग्रहण करने तक, इनमें से जो भी पहले हो, सहर्ष तदर्थ नियुक्ति की अवधि बढ़ाते हैं।

1. श्री अनिल कपूरिया
2. श्री राम प्रकाश
3. श्रीमती वृष्णा कथुर
4. श्री बृज नाथ
5. श्री जितेन्द्र प्रभाकर

टी० एन० द्विवेदी, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 30 जून 2004

सं० ए-19015/13/84-प्रशा० 1 (ए)—राष्ट्रपति, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग से श्री टी० के० मण्डल, वैज्ञानिक "एफ" को अधिवर्षिता की आय प्राप्त करने पर 30 जून, 2004 (अपराह्न) से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त करते हैं।

के० एस० नेपोलियन, निदेशक

## पर्यावरण एवं वन मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 1 जून 2004

सं० 32012/1/2003-भा.व.से.-I—भारतीय वन सेवा (पदोन्नति नियुक्ति) विनियम 1966 के विनियम 7 के उप-विनियम (3) में सिहित उपबन्धों का प्रयोग करते हुए वर्ष 2003 के लिए 26-12-2003 को चयन समिति की बैठक हुई थी। संघ लोक सेवा आयोग ने उक्त बैठक में तैयार चयन सूची को अनुमोदित कर दिया है जिसमें संयुक्त ए जी एम यू टी संवर्ग के गोवा खण्ड में 1 जनवरी 2003 को उपलब्ध पदोन्नति रिक्रियों को भरने के लिए राज्य वन सेवा गोवा के निम्नलिखित सदस्य का नाम शामिल है।

क्रम सं०	नाम	जन्म तिथि
1.	श्री डी एन एफ कारवाल्हो	1-12-1955

एम० एल० पराशर, अवर सचिव

नई दिल्ली-110003, दिनांक 17 जून 2004

सं० 17013/1/2001-भा० व० से०-II—राष्ट्रपति, भारतीय वन सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1966 के विनियम 9 के उपविनियम (1) के साथ पठित भारतीय वन सेवा (भर्ती) नियम, 1966 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आन्ध्र प्रदेश राज्य वन सेवा के अधिकारी श्री के० सूर्यनारायण (जन्म तिथि: 01-07-1958) को उपलब्ध रिक्रिय के एवज में भारतीय वन सेवा में तत्काल प्रभाव से नियुक्त करते हैं और उन्हें भारतीय वन सेवा (संवर्ग) नियम, 1966 के नियम 5 के उपनियम (1) के अन्तर्गत भारतीय वन सेवा का आन्ध्र प्रदेश संवर्ग आवंटित करते हैं।

अशोक कुमार, अवर सचिव

नई दिल्ली -110003, दिनांक 21 जून 2004

सं० ए-12021/1/2002-सी०पी०डब्ल्यू (.) चयन समिति की दिनांक 11-3-2004 को आयोजित हुई बैठक की सिफारिश के आधार पर राष्ट्रपति डॉ० बी० सेन गुप्ता, निदेशक, केन्द्रीय प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड तथा जिनके पास सदस्य सचिव के पद का अतिरिक्त प्रभाग है, को सदस्य सचिव केन्द्रीय प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड के पद पर रु० 16,500-450-20,000 के वेतनमान में दिनांक 17-6-2004 (अपराह्न) से 3 वर्ष की अवधि के लिए तदर्थ आधार पर सहर्ष नियुक्त करते हैं।

के०बी० मधू, अवर सचिव

## स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 25 जून 2004

सं० ए-12025/16/98-सी०एच०एस०-III राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर डा० मनोज भरत लाल जैस को केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के अध्यापन उपसंवर्ग के विशेषज्ञ ग्रेड-II के एक अधिकारी के रूप में परीक्षा पर नियुक्त करके उन्हें 10-5-1999 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक लेडी हाडिंग मेडिकल कॉलेज, नई दिल्ली में सूक्ष्मजीवविज्ञान के सहायक प्रोफेसर के पद पर तैनात करते हैं।

वाई०के० तलवार, उप सचिव

दिनांक 5 जुलाई 2004

शुद्धि-पत्र

सं० ए० 31013/1/2002-सी० एच० एस०-V—केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के विशेषज्ञ ग्रेड-II (अव्यापनेत्तर उप-सर्व) की वास्तविक नियुक्ति के संबंध में दिनांक 27 मई, 2004 की समसंख्यक अधिसूचना में निम्नलिखित संशोधन किए जाएं।

क्रम संख्या	अधिसूचना में क्रम संख्या	अधिसूचना में निर्दिष्ट अधिकारी का नाम	निर्दिष्ट किए जाने वाले अधिकारी का वास्तविक नाम
1.	24	डॉ० रचनालाल	डॉ० वच्चा लाल
2.	62	डॉ० (सुश्री) आर० डी० हसीजा	डॉ० (सुश्री) वी० डी० हसीजा
3.	75	डॉ० (सुश्री) एम० एस० पाकलि	डॉ० (सुश्री) वी० एम० परकाशे
4.	81	डॉ० (सुश्री) रेणु मलिक	डॉ० (सुश्री) रेणुका मलिक

(II) डॉ० (सुश्री) स्वाति देवीकर (क्रम संख्या 71) और डॉ० [एस० एम० चक्रनारायणन (क्रम संख्या 181) की वास्तविक नियुक्तियां अंतिम हो गईं और उनके जाति प्रमाण-पत्रों के सत्यापन के अधीन हैं।

वाई० के० तलवार, उप सचिव

नई दिल्ली-11, दिनांक 30 जून 2004

सं० ए० 12025/42/97-सी० एच० एस०-I—राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर, डा० धर्मेन्द्र गुप्ता को दिनांक 1-1-2001 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के चिकित्सा अधिकारी ग्रेड में 8000-275-13500/- रु० के वेतनमान में अस्थायी आधार पर नियुक्त करते हैं। डा० धर्मेन्द्र गुप्ता को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के अधीन चिकित्सा अधिकारी के पद पर तैनात किया जाता है।

जगदीश कुमार, अवर सचिव

कृषि मंत्रालय

(कृषि एवं सहकारिता विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 28 जून 2004

सं० 19011/401/2004-स्था० 5—राष्ट्रपति, कृषि एवं सहकारिता विभाग में 10,000-325-15,200/- रु० के वेतनमान में सहायक आयुक्त (फसल) के पद पर कार्यरत श्री राजवीर सिंह को प्रतिनियुक्ति अवधि को 1-6-2004 से तीन माह की अवधि तक अर्थात् 1-9-2004 तक या नियमित पदाधिकारी की नियुक्ति तक, दोनों में से जो भी पहले हो, बढ़ाते हैं।

के० डी० उप्रेती, अवर सचिव

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

(माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 26 अप्रैल 2004

सं० ए० 32011/3/2004-स्था०-I—राष्ट्रपति, मानव संसाधन विकास मंत्रालय संवर्ग के केन्द्रीय सचिवालय सेवा से संबंधित निम्नलिखित अनुभाग अधिकारियों (तदर्थ)/सहायकों

को 25 मार्च 2004 से तदर्थ आधार पर अनुभाग अधिकारी नियुक्त करते हैं :—

क्रम सं०	नाम	विभाग
(1)	(2)	(3)
	सर्वश्री	
1.	डी० डी० रंजन, अनुभाग अधिकारी, (तदर्थ)	शिक्षा
2.	सतीश कुमार, अनुभाग अधिकारी, (तदर्थ)	शिक्षा
3.	थामस जार्ज, अनुभाग अधिकारी, (तदर्थ)	शिक्षा
4.	आर० एन० मोहन्ती, अनुभाग अधिकारी, (तदर्थ)	शिक्षा
5.	श्रीमती जितेन्द्र कौर, अनुभाग अधिकारी, (तदर्थ)	महिला एवं बाल विकास
6.	कमलजीत सिंह, अनुभाग अधिकारी, (तदर्थ)	महिला एवं बाल विकास
7.	एस० डी० शर्मा, अनुभाग अधिकारी, (तदर्थ)	शिक्षा
8.	एम० एम० सक्सेना, अनुभाग अधिकारी, (तदर्थ)	शिक्षा
9.	जी० के० मुखर्जी, अनुभाग अधिकारी, (तदर्थ)	युवा कार्यक्रम और खेल
10.	एस० विजय गोपाल, अनुभाग अधिकारी, (तदर्थ)	शिक्षा
11.	जे० के० जैन, अनुभाग अधिकारी, (तदर्थ)	शिक्षा
12.	एस० के० बैनर्जी, अनुभाग अधिकारी, (तदर्थ)	भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण

1	2	3
13.	सुरेश शरण, अनुभाग अधिकारी, (तदर्थ)	महिला एवं बाल विकास
14.	श्रीमती सुंदरी बंसल, अनुभाग अधिकारी, (तदर्थ)	शिक्षा
15.	ए० के० सुद, अनुभाग अधिकारी, (तदर्थ)	शिक्षा
16.	सुरेन्द्र कुमार, अनुभाग अधिकारी, (तदर्थ)	संस्कृति
17.	श्रीम प्रकाश, अनुभाग अधिकारी, (तदर्थ)	संस्कृति
18.	एस० के० शर्मा, सहायक	शिक्षा
19.	राजेन्द्र सिंह यादव, सहायक	युवा कार्यक्रम और खेल
20.	गुलशन कुमार, सहायक	शिक्षा
21.	संजय कुमार मिश्रा, सहायक	शिक्षा
22.	श्रीमती मंजु डोंगरा, सहायक	शिक्षा
23.	श्रीमती राधा नारायणन सहायक	युवा कार्यक्रम और खेल
24.	अशोक कुमार, सहायक	युवा कार्यक्रम और खेल
25.	कमल अरोड़ा, सहायक	शिक्षा
26.	अशोक महेश, सहायक	युवा कार्यक्रम और खेल
27.	परमिंदर सिंह, सहायक	शिक्षा
28.	धर्म नागर, सहायक	शिक्षा
29.	नारायण दास, सहायक	शिक्षा
30.	योगेश प्रताप सिंह, सहायक	शिक्षा
31.	ज्ञानेन्द्र कुमार कालरा, सहायक	भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण
32.	प्रहलाद चंद, सहायक	महिला एवं बाल विकास
33.	एस० एस० वोहरा, सहायक	शिक्षा
34.	महेन्द्र कुमार खन्ना, सहायक	महिला एवं बाल विकास
35.	लक्ष्मण सिंह, सहायक	महिला एवं बाल विकास
36.	एस० के० गुप्ता, सहायक	शिक्षा
37.	के० एन० आहूजा, सहायक	महिला एवं बाल विकास
38.	अजीजुद्दीन, सहायक	महिला एवं बाल विकास
39.	कंचन नागराज, सहायक	शिक्षा
40.	बी० डी० राय, सहायक	शिक्षा
41.	अरुण अग्रवाल, सहायक	शिक्षा
42.	आर० के० गोयल, सहायक	युवा कार्यक्रम और खेल
43.	पी० भट्टाचार्य, सहायक	युवा कार्यक्रम और खेल
44.	श्रीमती नीलम रामडे, सहायक	युवा कार्यक्रम और खेल
45.	योगिन्दर सिंह, सहायक	शिक्षा
46.	बी० एस० कक्कड़, सहायक	युवा कार्यक्रम और खेल
47.	सुदेश कुमार पंवार, सहायक	शिक्षा
48.	के० के० पाव, सहायक	युवा कार्यक्रम और खेल

1	2	3
49.	चिरञ्ज सरकार, सहायक	शिक्षा
50.	बी० के० बंदोपाध्याय, सहायक	युवा कार्यक्रम और खेल
51.	डी० एस० एस० युडकी, सहायक	शिक्षा
52.	आर० ए० एस० कुशवाहा, सहायक	शिक्षा
53.	एन० खामचिन थांग, सहायक	शिक्षा
54.	सी० जे० नरेन्द्रनाथन नायर, सहायक	शिक्षा
55.	श्रीमती स्वर्णलता मेहता, सहायक	शिक्षा
56.	चंपत सिंह, सहायक	युवा कार्यक्रम और खेल

2. उपर्युक्त नियुक्तियाँ पूर्णतः तदर्थ आधार पर हैं और इस श्रेणी में अनिश्चितकाल तक बने रहने अथवा नियमित नियुक्ति हेतु चयन सूची में सम्मिलित होने अथवा अनुभाग अधिकारियों की श्रेणी में वरीयता प्राप्त करने का इन्हें अधिकार नहीं होगा।

बी० एम० सद्दी, अवर सचिव

दिनांक 11 मई 2004

सं० एफ० 15-1925/99-स्थापना-I—प्रतिलिप्याधिकार अधिनियम, 1957 (1957 का 4) की धारा 10 की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्र सरकार एतद्वारा इस मंत्रालय की श्रीमती सुमिता सिंह, अनुभाग अधिकारी को श्री एस० डी० शर्मा, अनुभाग अधिकारी के स्थान पर कापीरालिस्ट के उप-रजिस्ट्रार के रूप में तत्काल प्रभाव से नियुक्त करती है।

बी० एम० सद्दी, अवर सचिव

दिनांक 4 जून 2004

सं० ए० 44011/12/2003-स्था०-I—वर्ष 2001 की अनुभाग अधिकारियों की चयनसूची में वरिष्ठता कोटे के अनुसार अनुभाग अधिकारियों के नामों को शामिल किये जाने के बाद राष्ट्रपति, श्री डी० डी० रंजन तथा श्री डी० एस० उके, सी० एस० एस० केंडर के ग्रेड-IV के स्थायी अधिकारियों (सहायक) को 2-6-2004 से मानव संसाधन विकास मंत्रालय (माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा विभाग) के सीएसएस केंडर में स्थानापन्न रूप में अनुभाग अधिकारी के रूप में नियुक्त करते हैं।

बी० एम० सद्दी, अवर सचिव

(महिला एवं बाल विकास विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 23 जून 2004

सं० 2-3/2004-प्रशासन-I—भारत के राष्ट्रपति, डा० तेजपाल सिंह, आई० सी० एण्ड सी० ई० एस० (90) को, उनके पद ग्रहण करने की तारीख, अर्थात् 18-6-2004 से

पांच वर्षों के उनके बकाया कार्यकाल के लिए (जैसा कि मंत्रियों के निजी सचिवों को अनुमेष होता है) 27-1-2007 तक अथवा मंत्रीजी के निजी सचिव के रूप में उनके द्वारा कार्य करना बंद करने तक अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, श्रीमती कांति सिंह, राज्य मंत्री (मानव संसाधन विकास—महिला एवं बाल विकास) के निजी सचिव (दिनांक 30-6-2004 तक उप-सचिव के स्तर पर तथा दिनांक 1-7-2004 से निदेशक के स्तर पर) के पद पर नियुक्त करते हैं।

आर० एस० शर्मा, अवर सचिव

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

(सूचना प्रौद्योगिकी विभाग)

राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र

नई दिल्ली-110003, दिनांक 29 जून 2004

सं० ए-39013/1/2004-प्रशा० I—भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, नई दिल्ली में 12000-420-18300/-रुपये के वेतनमान में वरिष्ठ प्रोग्रामर के रूप में चयन के परिणामस्वरूप श्रीमती जया (कर्मचारी कोड सं० 3761) का राष्ट्रपति एतद्वारा राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र, नई दिल्ली में वैज्ञानिक-‘डी’ के पद से त्यागपत्र दिनांक 29 जून, 2004 की अपराह्न से स्वीकार करते हैं। उन्हें ड्यूटी से उसी दिन से कार्यमुक्त किया जाता है जिसे कि वे भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, नई दिल्ली में कार्यभार ग्रहण कर सके।

पी० एस० पिल्लै, उप-निदेशक (प्रशा०)

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 24 जून 2004

सं० ए-32011/2/2003-ई-2(Pt.)—राष्ट्रपति, श्री सी०के० भारद्वाज को सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, नई दिल्ली, में दिनांक 21-06-2004 (पू०) से अगले आदेश तक मुख्य प्रारूपकार (वर्ग “ख”) राजपत्रित के पद पर वेतनमान रु० 6500-200-10500/- में नियुक्त करते हैं।

ए० पी० पांडी, अवर सचिव

दिनांक 25 जून 2004

सं० ए-12025/2/2003-स्था० II—राष्ट्रपति, श्री अभिलाष कुमार को सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, नई दिल्ली, में दिनांक 23-06-2004 (पूर्वाह्न) से और आगामी आदेशों तक सहायक कार्यकारी अभियंता (सिविल) के पद पर वेतनमान रु० 8000-275-13500 में नियुक्त करते हैं।

ए० पी० पांडी, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 5 जुलाई 2004

सं० ए-19011/807/2000-स्था० I—श्री यू० एस० तिवारी, उप सचिव, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, 3—152GL/04

निवर्तन की आयु पूरी होने पर दिनांक 30-6-2004 से सेवा-निवर्त हो गए हैं।

डा० एन० सी० कौशिक, अवर सचिव

विद्युत मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 5 जुलाई 2004

सं० 16/2004 (फाइल सं० ए-32013/1/2003-प्रशा०-एक)—विभागीय पदोन्नति समिति की संस्तुति पर, राष्ट्रपति, केन्द्रीय विद्युत इंजीनियरी (समूह-क) के निम्नलिखित अधिकारियों को केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण में उसी सेवा के उप निदेशक/कार्यकारी अभियंता के ग्रेड में रु० 3000—4500 (संशोधन पूर्व) के वेतनमान में, उनके नाम के सामने दर्शाई गई तारीख से अगले आदेश जारी होने तक के लिये नियुक्त करते हैं :—

क्रम सं०	नाम	नियुक्ति की तारीख
	सर्वश्री	
1	एम० एस० कौशिका	31-07-2003 (पूर्वाह्न)
2	एस० एम० ए० उस्मानी	" "
3	डी०वी० लक्ष्मीपति	" "
4	रोहताश सिंह	" "
5	आर० डी० पंडारे	" "
6	कुलदीप सिंह	" "
7	एम०एम० ठकाटे	" "
8	अमित घोष	29-10-2003 (पूर्वाह्न)
9	सुरिन्द्र प्रसाद	31-07-2003 (पूर्वाह्न)
10	अरुण पुराणिक	25-08-2003 (पूर्वाह्न)
11	एच० एल० खुराना	31-07-2003 (पूर्वाह्न)
12	चन्दन राय	" "
13	हरदयाल सिंह	" "
14	एस० के० विज	17-10-2003 (पूर्वाह्न)
15	एस० सी० दास	" "
16	राजिन्द्र कुमार	" "
17	एस० एन० सरकार	21-01-2004 (पूर्वाह्न)
18	प्रभु दयाल	17-10-2003 (पूर्वाह्न)
19	जे० एस० दास	" "
20	बलवीर सिंह	" "

2. ये नियुक्तियाँ दिल्ली उच्च न्यायालय में दायर रिट याचिका सं० 1230/1999-भारत सरकार एवं अन्य बनाम ए० के० सिंघल एवं अन्य, तथा रिट याचिका सं० 3362/1999—संजय शर्मा एवं अन्य बनाम भारत सरकार एवं अन्य के निषेध के अधीन होंगी।

विकास चंद्र काजला, अवर सचिव

सं० 17/2004/फाइल सं० ए-32013/1/2003-प्रशा०-  
एक—विभागीय पदेननति समिति की संस्तुति पर तथा उनके  
विदेश स्थित सर्वोच्च पद से वापस आने पर, राष्ट्रपति  
केन्द्रीय विद्युत इंजीनियरी (ग्रुप-क) के अधिकारी श्री एस०  
एस० बैस को केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण में उमी सेवा के उप  
निदेशक/कार्यकारी अभियन्ता के ग्रेड में रु० 3000-4500  
(संशोधन पूर्व) के वेतनमान में, कल्पित रूप में दिनांक  
17-10-2003 (पूर्वाह्न) तथा वास्तविक रूप में दिनांक  
23-4-2004 (पूर्वाह्न) से नियुक्त करते हैं।

2. यह नियुक्ति दिल्ली उच्च न्यायालय में दायर रिट  
याचिका सं० 1230/1999-भारत सरकार एवं अन्य बनाम  
ए० के० सिधल एवं अन्य, तथा रिट याचिका सं० 3362/  
1999-संजय शर्मा एवं अन्य बनाम भारत सरकार एवं अन्य  
के निर्णय के अधीन होगी।

विकास चन्द्र काजला, अवर सचिव

#### जल संसाधन मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 7 जुलाई 2004

सं० 10/2004, फाइल सं० 25/2(15)/2003-स्था०-  
एक—संयुक्त इंजीनियरिंग सेवा परीक्षा-2002 के परिणामों के  
आधार पर राष्ट्रपति ने श्री मिलिन्द अर्जुन पानपाटिल को दिनांक  
2-4-2004 पूर्वाह्न से केन्द्रीय जल आयोग में केन्द्रीय जल इंजी-  
नियरिंग (ग्रुप क) सेवा के सहायक निदेशक/सहायक कार्यकारी  
इंजीनियर (सिविल/मैकेनिकल) के पद पर रु० 8000-13500  
के वेतनमान में कार्य करने के लिए नियुक्त किया है।

2. श्री मिलिन्द अर्जुन पानपाटिल कार्यभार ग्रहण करने की  
तारीख से 2 वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षाधीन रहेंगे जिसे  
आवश्यक समझे जाने पर बढ़ाया जा सकता है।

हरदयाल सिंह, अवर सचिव

सं० 11/2004, फाइल सं०-25-2(1)/2003-स्था०-  
एक—संयुक्त इंजीनियरिंग सेवा परीक्षा-2002 के परिणामों के  
आधार पर राष्ट्रपति ने श्री प्रदीप कुमार ठाकुर को दिनांक  
1-4-2004 पूर्वाह्न से केन्द्रीय जल आयोग में केन्द्रीय जल  
इंजीनियरिंग (ग्रुप क) सेवा के सहायक निदेशक/सहायक कार्य-  
कारी इंजीनियर (सिविल) के पद पर रु० 8000-13500 के  
वेतनमान में कार्य करने के लिए नियुक्त किया है।

2. श्री प्रदीप कुमार ठाकुर कार्यभार ग्रहण करने की तारीख  
से 2 वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षाधीन रहेंगे जिसे आवश्यक  
समझे जाने पर बढ़ाया जा सकता है।

हरदयाल सिंह, अवर सचिव

सं० 12/2004 फाइल सं० 25/2(13)/2004-स्था०-  
एक—संयुक्त इंजीनियरिंग सेवा परीक्षा 2002 के परिणामों के  
आधार पर राष्ट्रपति ने श्री अजय सिंह को दिनांक-29-4-04  
पूर्वाह्न से केन्द्रीय जल आयोग में केन्द्रीय जल इंजीनियरिंग  
(ग्रुप क) सेवा के सहायक निदेशक/सहायक कार्यकारी इंजी-  
नियर (सिविल/मैकेनिकल) के पद पर रु० 8000-13500  
के वेतनमान में कार्य करने के लिए नियुक्त किया है।

2. श्री अजय सिंह कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से  
2 वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षाधीन रहेंगे जिसे आवश्यक  
समझे जाने पर बढ़ाया जा सकता है।

हरदयाल सिंह, अवर सचिव

#### महासागर विकास विभाग

नई दिल्ली-110003, दिनांक 30 जून 2004

सं० सवि/11/2/2001-स्था०—राष्ट्रपति द्वारा महासागर  
विकास विभाग के सचिव, डॉ० हर्ष के० गुप्ता की 62 वर्ष की  
आयु पूरी करने के बाद उनकी सेवा एक वर्ष अर्थात्  
30-06-2005 तक बढ़ाई जाती है।

राकेश कुमार, उप सचिव

#### सूचना और प्रसारण मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 28 जून 2004

सं० 1/15/2000-एम०यू०सी०—इस मंत्रालय की दिनांक  
22-12-2003 की समसंख्यक अधिसूचना के क्रम में, राष्ट्रपति,  
विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय, सूचना और प्रसारण  
मंत्रालय, नई दिल्ली में संयुक्त निदेशक (विज्ञापन) (वेतनमान  
12,000-375-16,500/- रु०) के रूप में कार्यरत श्री एस०  
बी० मेनन, वरिष्ठ ग्रेड 'क' अधिकारी, भारतीय सूचना सेवा  
की प्रतिनियुक्ति अवधि को दिनांक 7-6-2004 से आगे तीन  
माह की अवधि के लिए अथवा अगले आदेश होने तक, जो भी  
पहले हो, बढ़ाते हैं।

एस० कुमार स्वामी, उप सचिव

## PRIME MINISTER'S OFFICE

New Delhi-110011, the 28th June 2004

No. A.22017/3/2004-PMA—Notification of even number dated 4-6-2004 appointing Shri B. K. Pant, a Principal Private Secretary of Rajya Sabha Secretariat, as Senior Principal Private Secretary on the personal staff of PM, is hereby cancelled.

ROHIT KHERA, Officer on Special Duty

The 30th June 2004

No. A. 22017/4/2004-PMA—The President is pleased to appoint Shri G.C. Upadhyay, a Private Secretary of CSSS cadre of Ministry of Finance, Department of Revenue, as Assistant Private Secretary to Shri Prithviraj Chavan, Minister of State, in the Prime Minister's Office with effect from the forenoon of May 22, 2004 in the scale of pay of Rs. 6500-200-10500.

2. The appointment of Shri G.C. Upadhyay on the personal staff is coterminous with the tenure of and at the discretion of the Minister of State, Prime Minister's Office.

ROHIT KHERA, Officer on Special Duty

The 1st July 2004

No. A. 22012/1/2004-PMA—Shri M. R. Reddy IPS (MH : 67) (retd.) has relinquished the charge of Officer on Special Duty in the Prime Minister's Office with effect from the afternoon of June 30, 2004.

ROHIT KHERA, Officer on Special Duty

## RAJYA SABHA SECRETARIAT

New Delhi-110001, the 15th June 2004

No. RS/6(iii)/2004/33-Perl.—Shri Raghavendra Singh (IAS, West Bengal, 1983) has been appointed to officiate as Secretary to Leader of Opposition, Rajya Sabha, in the scale of pay of Rs. 18400-500-22400 in the Rajya Sabha Secretariat in the personal staff of Leader of Opposition, Rajya Sabha, with effect from the forenoon of 4th June 2004, until further orders.

2. The appointment of Shri Raghavendra Singh is at the discretion of the present Leader of Opposition, Rajya Sabha and will be co-terminus with the term of his office.

P. R. GUHA ROY, Dy. Secy.

The 1st July 2004

No. RS/3(i)/2004/43-Perl.—The Hon'ble Chairman, Rajya Sabha has been pleased to appoint Shri Naresh Chandra Joshi, Joint Secretary in the Rajya Sabha Secretariat to officiate as Additional Secretary in that

Secretariat, with effect from the forenoon of the 1st July 2004 until further orders.

P. R. GUHA ROY, Dy. Secy.

No. RS/6(ii)/2004/42-Perl.—The services of Shri Jayant Misra, who had been appointed as Officer on Special Duty on co-terminus basis in the personal staff of Hon'ble Deputy Chairman, Rajya Sabha will stand terminated with effect from the afternoon of the 9th July 2004 after granting him a winding up period of 30 days with effect from 10th June 2004.

P. R. GUHA ROY, Dy. Secy.

New Delhi-110001, the 30th June 2004

No. RS/3(i)/2004/41-Perl.—Shri Satish Kumar, CSS (Retd.), who was appointed as Additional Secretary in the Rajya Sabha Secretariat vide Notification No. RS/2(i)/2002/41-Perl. dated 1st July 2002 for a period of two years, as been relieved with effect from the afternoon of the 30th June 2004.

VANAJA N. SARNA, Jt. Secy.

## LOK SABHA SECRETARIAT

New Delhi-110001, the 18th May 2004

No. PF. 2090(3)/GN-5167/AN-I/2004.—Shri Sayed Kafil Ahmed, Assistant Director (LARRDIS) who was appointed as Deputy Director (LARRDIS) in the scale of pay of Rs. 12000-375-16500 on ad-hoc basis with effect from 3rd October 2003 vide Notification No. PF. 2090(3)/GN-5028/AN-I/2003 dated 7th October 2003 is reverted to the post of Assistant Director (LARRDIS) in the scale of pay of Rs. 10000-325-15200 with effect from the afternoon of 30th April 2004.

ANAND B. KULKARNI, Jt. Secy.

No. PF. 2091(3)/GN-5168/AN-I/2004.—Consequent upon his reversion from deputation to Department of Agriculture & Cooperation, Ministry of Agriculture, Dr. D.K. Singh, Deputy Director (LARRDIS) has resumed his duties in this Secretariat as Deputy Director (LARRDIS) in scale of Rs. 12000-375-16500 with effect from the afternoon of 30th April 2004.

ANAND B. KULKARNI, Jt. Secy.

The 19th May 2004

No. PF. 1526(3)/GN-5171/AN-I/2004.—The Speaker is pleased to appoint Smt. Usha Bhatia, Senior Personal

Assistant in the scale of pay of Rs. 7450-11500 to the grade of Private Secretary in the scale of pay of Rs. 8000-275-13500 with effect from 18th May, 2004, until further orders.

2. She will be on probation in the grade of Private Secretary for a period of two years with effect from 18th May 2004 upto 17th May 2006.

Her inter-se-seniority in the grade of Private Secretary will be regulated as per the provisions contained in R&CS Order No. PDA-1076/2003 dated 20-12-2003.

ANAND B. KULKARNI, Jt. Secy.

The 3rd June 2004

No. PF. 3857(3)/GN-5190/AN-I/2004.—Shri Satish M. Gavai, IAS (MH : 84), Director (LARRDIS) in the Lok Sabha Secretariat on Deputation basis is relieved of his duties with effect from the afternoon of 3rd June 2004 and thereafter his services are placed at the disposal of the Chief Secretary, Government of Maharashtra, Mumbai.

ANAND B. KULKARNI, Jt. Secy.

#### CABINET SECRETARIAT

New Delhi, the 1st July 2004

No. A-19011/01/2002-Ad. I.—Consequent upon his appointment as Secretary, Department of Disinvestment, Shri R. Poornalingam, IAS(TN:70), Additional Secretary has relinquished the charge of the post of Additional Secretary in the Cabinet Secretariat with effect from the afternoon of 30th June, 2004.

A. MOHANAN, Under Secy.

#### DEPARTMENT OF SPACE

Bangalore-560 094, the 22nd June 2004

No. 8/1/2002-VI(I).—Consequent to his repatriation, Shri S.V. Ranganath, IAS (KN:75) has relinquished the charge of the post of Joint Secretary in the Department of Space with effect from the afternoon of June 22, 2004.

K.S. RAMACHANDRA, Dy. Secy.

#### PLANNING COMMISSION

New Delhi, the 24th June 2004

No. F. 6(1889)/2003-Adm. I.—In pursuance of Department of Personnel & Training's communication No. 27/23/2004-EO (SM.I) dated 18th June, 2004, the term of central deputation of Dr. Kamal Taori, IAS (UL:68), Adviser, Planning Commission as Additional Secretary to the Govt. of India is extended for a period of two months beyond 19th June, 2004.

T.R. MEENA, Dir. (Admn.)

No. F. 6(1902)/2004-Adm. I.—In pursuance of the Planning Commission's Notification No. A-43011/23/2004-Adm. I. dated 17th June, 2004, Dr. Kirit S. Parikh has assumed charge as Member, Planning Commission w.e.f. 21.6-2004(AN).

T.R. MEENA, Dir. (Admn.)

The 29th June 2004

No. F. 6(1905)/2004-Adm. I.—In pursuance of the Planning Commission's Notification No. A-43011/23/2004-Adm. I. dated 17th June, 2004, Dr. (Mrs.) Syeda Hameed has assumed charge as Member, Planning Commission w.e.f. 28.6-2004(FN).

T.R. MEENA, Dir. (Admn.)

New Delhi, the 5th July 2004

No. F. 6(1741)/98--Adm. I.—In pursuance of the Planning Commission's Notification No. A-43011/23/2004-Adm. I. dated 17th June, 2004, Shri Montek Singh Ahluwalia has assumed charge as Deputy Chairman, Planning Commission w.e.f. 4.7.2004(FN).

D.K. SHARMA, Dir. (GA)

No. F. 6(1903)/2004--Adm. I.—In pursuance of the Planning Commission's Notification No. A-43011/23/2004-Adm. I. dated 17th June, 2004, Dr. B.L. Mungekar has assumed charge as Member, Planning Commission w.e.f. 5.7.2004(FN).

D.K. SHARMA, Dir. (GA)

No. F. 6(1908)/2004--Adm. I.—In pursuance of the Planning Commission's Notification No. A-43011/23/2004-Adm. I. dated 17th June, 2004, Prof. Abhijit Sen has assumed charge as Member, Planning Commission w.e.f. 2.7.2004(AN).

D.K. SHARMA, Dir. (GA)

#### NATIONAL COMMISSION ON POPULATION

New Delhi, the 15th June 2004

No. A-43011/17/2001-NCP—The President is pleased to extend the term of appointment of Shri V. Asokan as Joint Secretary in the National Commission on Population on deputation basis in the pay scale of Rs. 18400-22400 with effect from 6.2.2004 to 31.7.2004 or until further orders whichever is earlier.

R.K. PARMAR, Under Secy. (NCP)

#### MINISTRY OF STATISTICS AND PROGRAMME IMPLEMENTATION

New Delhi-110001, the 16th June 2004

No. 12014/1/2003-ISS.—The President is pleased to appoint the following officers of the Indian Statistical Service (direct recruits of the examinations held in 1991, 1992, 1995,



1997, 1998 and 1999) substantively to Grade IV of the Service, as indicated hereunder :

S.No.	Name	With effect from
<b>XIX Batch (ISS EXAMINATION, 1991)</b>		
1.	Ms Snehlata Sethi	14.9.99
<b>XX Batch (ISS EXAMINATION, 1992)</b>		
	S/Shri	
1.	Smt. Pally Kundu	20.1.96
2.	Smt. Pravin Singh (Horo)	20.1.96
3.	P. Manickam	20.1.96
4.	Kishore Kumar	20.1.96
5.	Jyoti Prasad Arya	20.1.96
6.	M.M. Singh	20.1.96
7.	Madan Lal	20.1.96
8.	Ravuri Kiran Kumar	20.1.96
<b>XXI Batch (ISS EXAMINATION, 1995)</b>		
1.	Blaskar Mishra	21.9.99
2.	E. Banumati	26.5.2000
3.	S.K. Mukhopadhyay	21.9.99
4.	Rajesh Bhatia	21.9.99
5.	Smt. Sunitha Bhaskar	21.9.99
6.	P. Rajesh	21.9.99
7.	Gaya Prasad	22.9.99
8.	K. Manao Singh	21.9.99
9.	Smt. Ratna Chaudhuri	21.9.99
10.	Anil D. Patil	26.5.2000
11.	Haridwar Yadav	26.5.2000-Technical Resignation w.e.f. 22.7.2002
<b>XXII Batch (ISS EXAMINATION, 1997)</b>		
1.	Sanjeev Kumar Gupta	30.11.2000
2.	Anupam Lahiri	5.3.2001
3.	Ms N. Sangeetha	31.8.2000
4.	Rohit Bhargwaj	30.11.2000
5.	Prakash Chandra Lakhchaura	31.8.2000
6.	Ms Supriya Basu	31.8.2000
7.	Ms Vimmi Sachdeva	19.10.2000- Technical Resigna- tion w.e.f. 31.8.03
8.	D.P. Srivastava	26.3.2002
9.	Nilanjan Chatterjee	31.8.2000
10.	Chandra Shekar Mishra	5.3.2001

S.No.	Name	With effect from
11.	Sunil Kumar Singh	31.8.2000
12.	Sunil Prakash	31.8.2000
13.	Ms Anuja Bapat	30.11.2000
14.	Ms Arundhati Ganguly	5.3.2001
15.	Arindam Modak	31.8.2000
16.	Biswajit Das	31.8.2000
17.	Dhrijesh Kumar Tiwari	5.3.2001
18.	Dr. Ashutosh Ojha	5.3.2001
19.	Ms Reena Jatana	31.8.2000
20.	Ms S. Radha	31.8.2000
21.	Amitava Saha	5.3.2001
22.	Ms P.A. Mini	31.8.2000
23.	D. Satish	31.8.2000
24.	Dinesh Kumar	30.11.2000
25.	Roshan Lal Sahu	31.8.2000
26.	Tarak Chandra Patra	31.8.2000
27.	Ms M.G. Jayasree	31.8.2000
28.	Ms Navanita Gogoi	31.8.2000
29.	K.S. Rejimon	31.8.2000
30.	Madhusudan S. Adki	31.8.2000
31.	Satyajit Paul	31.8.2000
32.	P. Manoj Kumar	31.8.2000
<b>XXIII Batch (ISS EXAMINATION, 1998)</b>		
1.	Ms. Santosh	11.7.2001
2.	Bhendra Singh	11.7.2001
3.	Satya Chakraborty	11.7.2001
4.	Pankaj Kumar Srivastava	11.7.2001
5.	Sanjeev Kumar	11.7.2001
6.	Dilip Kumar Sinha	11.7.2001
7.	Onkar Prosad Ghosh	11.7.2001
8.	Ms Richa Shanker	11.7.2001
9.	Atanu Kumar Chowdhary	11.7.2001
10.	Ms. Kanchana Venkatesh	11.7.2001
11.	Rajesh Kumar Sharma	11.7.2001
12.	Ms. Bindu S. Nair	11.7.2001
13.	Sunil Kumar Bhanawat	11.7.2001
14.	Ms. Subha P.T.	11.7.2001
15.	Ms. Rashmi Verma	11.7.2001
16.	Neeraj Kumar Srivastava	11.7.2001
17.	E. Nagachandran	11.7.2001

S.No.	Name	With effect from
18.	Ms. Debanjana Ghosh	11.7.2001
19.	Sankarsana Sahoo	11.7.2001
20.	Saji George	11.7.2001
21.	Rajesh P. Patil	1.2.2002
22.	Ms. Bhawna	11.7.2001
23.	Junaid Farooqui	11.7.2001
24.	Rakesh Kumar Maurya	11.7.2001
25.	Nimat Kumar Tudu	11.7.2001
XXIV Batch (ISS EXAMINATION, 1999)		
1.	Ms. Anshu Singh	22.11.2002
2.	Rajnish Mathur	28.11.2002
3.	Anindita Sinharay	5.11.2002
4.	Sourav Chakraborty	5.11.2002
5.	Ms. Swapnalee Bhattacharya	28.11.2002
6.	Ms. C. Beena Jose	5.11.2002
7.	Jagtap Rahul Subash	28.11.2002
8.	Anmdya Banerjee	28.11.2002
9.	M.S. Subramanya Rao	5.11.2002
10.	Rajeshwari Kasturi	5.11.2002
11.	Avanish Kumar Mishra	5.11.2002
12.	Sanjib Basu	28.11.2002
13.	Ms. S. Leena	5.11.2002
14.	Ms. Deepti Srivastava	28.11.2002
15.	Ms. Vandana Malhotra	28.11.2002
16.	Pankaj K. Pandey Shreyaskar	28.11.2002
17.	Syed Iqbal Shuja Naqvi	28.11.2002
18.	Ganga Kumar	28.11.2002
19.	Kamla Kanta Nath	28.11.2002
20.	Chandra deep Kumar Jha	5.11.2002
21.	Alok Kumar Verma	19.11.2002
22.	Venkatramana R. Hedge	28.11.2002
23.	Hansraj Yadav	5.11.2002
24.	P. Palanivel	28.11.2002

A.K. SAXENA, Jt. Secy.

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE  
(LEGISLATIVE DEPARTMENT)

New Delhi, the 25th June 2004

No. A.12025(i)/2(A)/2002-Admn.I(L.D.).—On recommendation of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Ms. Upma Mathur, Sub-Editor in the Vidhi Sahitya Prakashan of the Legislative Department, Ministry of Law and Justice to officiate as Assistant Legislative Counsel (Hindi Branch) in the scale of pay of Rs. 10,000-325-15,200 in the Official Languages Wing of the Legislative Department, Ministry of Law and Justice with effect from the forenoon of 25th June, 2004 and until further orders.

M. DAS, Dy. Secy.

(DEPARTMENT OF JUSTICE)

New Delhi-110011, the 24th June 2004

No. K.13032/1/2004-US.II.—In exercise of the powers conferred by clause (1) of article 217 of the Constitution of India, the President is pleased to appoint Shri Justice Rajesh Tandon, Additional Judge of the Uttaranchal High Court, to be a Judge of the Uttaranchal High Court with effect from the date he assumes charge of his office.

K. GURTU, Dir. (Justice)

The 28th June 2004

No. K. 13032/5/2003-US.II.—In exercise of the powers conferred by clause (1) of article 224 of the Constitution of India, the President is pleased to appoint (i) Shri Bipin Chandra Kandpal, (ii) Shri Jeewan Chandra Singh Rawat, and (iii) Shri Prafulla Chandra Pant, to be Additional Judges of the Uttaranchal High Court, in that order of seniority, for a period of two years with effect from the date they assume charge of their respective office.

K. GURTU, Dir. (Justice)

The 29th June 2004

No. K. 13023/1/2004-US.II.—In exercise of the powers conferred by clause (1) of article 217 of the Constitution of India, the President is pleased to appoint (i) Shri Justice Arvind Kumar Awasthy, (ii) Shri Justice Ashok Kumar Tiwari, Additional Judges of the Madhya Pradesh High Court, to be Judges of the Madhya Pradesh High Court, in that order of seniority, with effect from the dates they assume charge of their respective office.

K. GURTU, Dir. (Justice)

No. K. 13025/4/2003-US.II.—In exercise of the powers conferred by clause (1) of article 224 of the Constitution

of India, the President is pleased to appoint Shri Raghunath Biswal, to be an Additional Judge of the Orissa High Court, for a period of two years with effect from the date he assumes charge of his office.

K. GURTU, Dir. (Justice)

No. K. 13025/5/2003-US.II.—In exercise of the powers conferred by clause (1) of article 224 of the Constitution of India, the President is pleased to appoint Shri Arun Kumar Parichha, to be an Additional Judge of the Orissa High Court, for a period of two years with effect from the date he assumes charge of his office.

K. GURTU, Dir. (Justice)

#### MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi, the 2nd July 2004

#### CORRIGENDUM

No. I. 18011/6/2002-IPS.IV.—In this Ministry's Notification of even number dated 30.05.2002, the date of confirmation in Indian Police Service in respect of Shri Naveen Arora, IPS (UP:1997), may be read as 25.08.1999 instead of 15.09.1999.

J.B. KAUSHISH, Desk Officer

New Delhi, the 5th July 2004

No. 20/G/2532-Ad.I.—The President is pleased to appoint Shri Dharendra Singh, IAS (KN:68), as Secretary in the Ministry of Home Affairs, with effect from the afternoon of 1st July, 2004, until further orders.

2. The President is also pleased to appoint Shri Dharendra Singh concurrently as Secretary in the Department of Justice.

S.K. BHATNAGAR, Under Secy.

No. 20/G/2579-Ad.I.—The President is pleased to appoint Shri Anupam Dasgupta, IAS (MH:70), as Secretary, Department of Official Language, Ministry of Home Affairs, with effect from the forenoon of 1st July, 2004, until further orders.

S.K. BHATNAGAR, Under Secy.

No. 20/G/2578-Ad.I.—The President is pleased to appoint Shri Ashoka Kumar Rastogi, IAS (TN:68), as Secretary (BM) in the Ministry of Home Affairs, with effect from the forenoon of 1st July, 2004, until further orders.

S.K. BHATNAGAR, Under Secy.

The 6th July 2004

No. A-11013/2/2004-Ad.I.—The President is pleased to appoint Shri Aseem Gupta, IAS (MH:94) as Private Secretary to the Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Manikrao Gavit) at the level of Deputy Secretary (Rs. 12,000-16,500/-) with effect from the forenoon of 29.6.2004.

2. The appointment of Shri Aseem Gupta would be for the period of five years i.e. upto 28.06.2009 or till he ceases to function as PS to Minister of State (Shri Manikrao Gavit) or until further orders, whichever event occurs the earliest.

S.K. BHATNAGAR, Under Secy.

No. A-11013/3/2004-Ad.I.—The President is pleased to appoint Dr. Mahesh Shukla, IAS (MH:90) as Private Secretary to the Union Home Minister (Shri Shivraj V. Patil) at the level of Director (Rs. 14,300-18,300/-) with effect from the afternoon of 01.07.2004.

2. The appointment of Dr. Mahesh Shukla would be for the period of five years i.e. upto 01.07.2009 or till he ceases to function as PS to Union Home Minister (Shri Shivraj V. Patil) or until further orders, whichever event occurs the earliest.

S.K. BHATNAGAR, Under Secy.

#### INTER-STATE COUNCIL SECRETARIAT

New Delhi, the 28th June 2004

No. A-19011/3/2004-ISC—The President is pleased to appoint Shri Barshankanti Jana, as Director in the Inter-State Council Secretariat, Ministry of Home Affairs with effect from the forenoon of 23rd June 2004 until further orders.

SUDHIR KUMAR, Dy. Secy.

#### (DEPARTMENT OF OFFICIAL LANGUAGE)

New Delhi-110003, the 1st July 2004

No. 13011/10/2003-O.L. (P&C)—The President is pleased to appoint Smt. Kiran Saxena, Joint Director (Adhoc) Central Translation Bureau, a subordinate office of this Department as Joint Director in the pay scale of Rs. 12000-375-16500/- on promotion w.e.f. the forenoon of 1st July, 2004.

B.M.S. NEGI, Director

#### DIRECTORATE GENERAL CIVIL DEFENCE

New Delhi, the 4th June 2004

No. A. 11016/2/2004-DGCD(Estt.)—The President is pleased to appoint Smt. Vaishali M. Meshram, Assistant in the National Fire Service College, Nagpur, Maharashtra, as Administrative Officer on Officiating basis in the pay scale of Rs. 6500-200-10500/- in the National Fire Service

College, Nagpur, Maharashtra on promotion w.e.f. 16th March 2004 (FN) until further orders.

OM PARKASH  
Fire Advisor & Head of Office

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES &  
PENSIONS

(DEPARTMENT OF PERSONNEL & TRAINING)

New Delhi, the 28th June 2004

No. 14015/01/2003-AIS(I)-A—In terms of the provisions contained in Sub-regulation (3) of Regulation 7 of the Indian Administrative Service (Appointment by Promotion) Regulations, 1955, the Union Public Service Commission has approved the Select List of 2002 for Andhra Pradesh containing the names of the following State Civil Service officers of the State of Andhra Pradesh prepared by the Selection Committee in its meeting held on 2nd April, 2004, towards filling up three (3) vacancies during 2002, in the Indian Administrative Service, Andhra Pradesh Cadre:—

No.	Name of the Officer	Date of Birth
1.	Shri B. Sreedhar	30.08.1964
2.	Shri B. Ramaiah	05.07.1951
3.	Smt. Anita Rajendra	04.02.1963

The inclusion of the name of the above officers in the Select List of 2002 for Andhra Pradesh is subject to the outcome of the OA No. 60/2004 filed by S/Shri G.S.R.K.R. Vijaya Kumar and B. Sreedhar in Central Administrative Tribunal, Hyderabad Bench.

PARMA NAND, Under Secy.

No. 14015/01/2003-AIS(I)-B—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of Rule 8 of the Indian Administrative Service (Recruitment) Rules, 1954 read with sub-regulation (1) of Regulation 9 of the Indian Administrative Service (Appointment by Promotion) Regulations, 1955 and Rule 3 of the Indian Administrative Service (Probation) Rules, 1954, the President is pleased to appoint S/Shri (1) B. Sreedhar, (2) B. Ramaiah and (3) Smt. Anita Rajendra, members of the State Civil Service of Andhra Pradesh to the Indian Administrative Service on probation with immediate effect until further orders and to allocate to the Cadre of Andhra Pradesh under sub-rule (1) of Rule 5 of the Indian Administrative Service (Cadre) Rules, 1954.

The above appointments are subject to the outcome of the OA No. 60/2004 filed in Central Administrative Tribunal, Hyderabad Bench by S/Shri G.S.R.K.R. Vijaya Kumar and B. Sreedhar, State Civil Service officers Andhra Pradesh.

PARMA NAND, Under Secy.

New Delhi, the 2nd July 2004

No. A. 32013/8/2004-Ad.I.—The President is pleased to appoint Shri Anugraha Narayan Tiwari, IAS (AP:69), as Secretary, Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions with effect from the forenoon of 1st July, 2004, until further orders.

V.K. VELUKUTTY, Under Secy.

No. A.32013/9/2004-Ad.I.—The President is pleased to appoint Shri Badal K. Das, IAS(MP:72), as Establishment Officer and Additional Secretary, Department of Personnel and Training, with effect from the afternoon of 30th June, 2004, until further orders.

V.K. VELUKUTTY, Under Secy.

MINISTRY OF FINANCE AND COMPANY AFFAIRS

(DEPARTMENT OF REVENUE)

New Delhi, the 14th June, 2004

No. 38: (F. No. 50/46/2003-Ad.I.).—In continuation of the Department's Notification No. 29 dated 17.05.2001, the President is pleased to extend the deputation tenure of Shri Jagmohan Singh, Section Officer (CSS) as Senior Analyst (DRI) in the Department of Revenue, for a period of one year w.e.f. 20.04.2004 (FN) to 19.04.2005 (AN) and until further orders.

PREETI PANT, Under Secy.

The 15th June 2004

No. 39: (F. No. A. 19012/5/2004-Ad.I.).—The President of India is pleased to appoint Shri A.K. Singhal, IC&CS, as Assistant Director General of the Central Economic Intelligence Bureau under the Department of Revenue, Ministry of Finance, (at the level of Deputy Secretary), for a period of 4 years with effect from 09.06.2004 (FN) or until further orders, whichever event takes place earlier.

PREETI PANT, Under Secy.

The 16th June 2004

No. 35: (F. No. A.19011/6/2004-Ad.I.).—The President of India is pleased to appoint Shri Berjinder Singh, (IRS : 1968), as Member, Central Board of Direct Taxes and Ex-officio Additional Secretary to the Government of India, Ministry of Finance, Department of Revenue with effect from 07.06.2004(FN) and until further orders.

PREETI PANT, Under Secy.

No. 34: (F. No. A. 19011/8/2004-Ad.I)—The President of India is pleased to appoint Shri N.K. Jain, (IRS: 1968), as Member, Central Board of Direct Taxes and Ex-officio Additional Secretary to the Government of India, Ministry of Finance, Department of Revenue with effect from 07.06.2004 (FN) and until further orders.

PREETI PANT, Under Secy.

No. 40 (F.No. A-19014/1/2002-Ad.I)—Consequent upon inclusion of his name in the Select List of Section Officers' Grade of CSS for the year 2001 against seniority quota, the President of India is pleased to appoint Shri Manoj Kumar Nirbheek, presently working as Section Officer (on ad-hoc basis) in the Department of Revenue and a permanent Assisnt of Finance Cadre of the Central Secretariat Service, as Section Officer on Regular basis in the Department of Revenue with effect from 14.06.2004 (FN) and until further orders.

PREETI PANT, Under Secy.

(DEPTT. OF ECONOMIC AFFAIRS)

BANKING DIVISION

New Delhi, the 23rd June 2004

No. 16/9/2003-DRT—Shri V. Chandrasekharan, Staff Officer, Bank of India on deputation to the post of Assistant Registrar, DRT, Guwahati expired on the 12th June, 2004.

M.K. MALHOTRA, Under Secy

The 25th June 2004

No. 12/1/03-DRT—In pursuance of the powers conferred by Section 9 read with Section 11 of the Recovery of Debts due to Banks and Financial Institutions Act, 1993 (51 of 1993), the Central Govt. hereby appoints Justice Prasun Kumar Deb, Retired Judge, High Court of Judicature at Patna as Chairperson of Debts Recovery Appellate Tribunal, Allahabad for a period of five years from 31.5.2004 (F.N.) or till he attains the age of 65 years, whichever is earlier.

M.K. MALHOTRA, Under Secy

New Delhi-110001, the 1st July 2004

No. A-19011/192/96-Estt.—Shri G.R. Summan, Director in the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, Banking Division, stands retired from the Government service w.e.f. the afternoon of 30th June, 2004 on attaining the age of superannuation

D. CHOUDHURY, Under Secy.

(DEPARTMENT OF DISINVESTMENT)

New Delhi-110003, the 1st July 2004

No. 9(5)/2004-Admn.—Shri R. Poornalingam, Indian Administrative Service (Tamil Nadu : 1970) hs assumed charge of the post of Secretary to the Government of India in the Department of Disinvestment on the 1st July, 2004 (forenoon).

S.K. BANDYOPADHYAY, Dy. Secy.

MINISTRY OF COMMERCE & INDUSTRY

(DEPARTMENT OF COMMERCE)

New Delhi, the 24th June 2004

No. 20/2004 (No. A-42011/6/2003-E.I).—Consequent on his nomination by the Department of Personnel & Training for making additions to the Select List of Section Officers' Grade for the year 2002, on the basis of Combined Limited Departmental Examination, 2002, the President is pleased to appoint the Shri Sunil Kumar Biswas (SC) a permanent Assistant of the Cadre of Ministry of Labour, to the grade of Section Officer in the cadre of Department of Commerce w.e.f. 23rd June, 2004 (FN).

With immediate effect, Shri Sunil Kumar Biswas, Section Officer is posted to States Cell vice Shri V. Srinivasaragavan, Section Officer.

S.K. TULI, Dy Secy.

The 29th June 2004

No. 21/2004(A-19011/2/2002-E-I).—The President is pleased to extend the service of Shri Dipak Chatterjee, IAS (WB:66) in the post of Secretary, Department of Commerce for a period of three months from 1st July, 2004 to 30th September, 2004, in public interest.

S.K. TULI, Dy. Secy.

MINISTRY OF TEXTILES

New Delhi, the 30th June 2004

No. 13/2004(A-45013/3/2003-Estt).—Shri S.B. Mohapatra, IAS (OR:67) Secretary to the Government of India, Ministry of Textiles, retired from Government Service on attainment of the age of superannuation with effect from the afternoon of 30th June, 2004.

SHASHI BHUSHAN, Director

MINISTRY OF COAL AND MINES

(DEPARTMENT OF COAL)

New Delhi, the 24th June 2004

No. A-32015/1/98-Admn.—In continuation of this Ministry's Notification of even number dated 3rd March, 2004, the President is pleased to appoint the following

Stenographers Grade 'C' (PAs) to the post of Private Secretary in the pay scale of Rs. 6500-200-10500/- with effect from 1.4.2004 to 30.6.2004 or till regular candidate becomes available, whichever is earlier.

1. Smt. Tasnim T. Kardar
2. Smt. Vibha Atri

The above mentioned promotion is being made on purely ad-hoc basis and the ad-hoc promotion will not confer on them any right for regular promotion. The Government reserve the right to cancel at any time the ad-hoc promotion and revert them to the post of Stenographer Grade 'C'.

GARGI MUKERJEE, Director

New Delhi, the 30th June 2004

No. A-23021/1/2001-Admn.—Consequent upon inclusion of her name in the Select List of Section Officers' Grade for the year 2001, the President is pleased to appoint Smt. Geeta Mishra, Assistant (presently working as Section Officer on ad-hoc basis) of this Department to the post of Section Officer in the pay scale of Rs. 6500-200-10500/- on regular basis w.e.f. 13th May, 2004.

PARVATI KAUTIA, Under Secy.

#### MINISTRY OF HEAVY INDUSTRIES & PUBLIC ENTERPRISES

(DEPARTMENT OF HEAVY INDUSTRY)

New Delhi, the 29th June 2004

No. A-19011/9/2004-Admn.—The President is pleased to appoint Shri D.R.S. Chaudhary, IAS (MP:77) as Joint Secretary in the Department of Heavy Industry, in the pay scale of Rs. 18400-22400 for a period of five years with effect from the forenoon of 17th May, 2004 or until further orders, whichever is earlier.

K.K. SHARMA, Under Secy.

#### MINISTRY OF SMALL SCALE INDUSTRIES

New Delhi, the 23rd June 2004

No. A-22011/1/2004-Estt.—The President is pleased to appoint Shri Rajat Bansal, IRS(87) as Director in the Ministry of Small Scale Industries for a period of five years with effect from the forenoon of 23rd June, 2004 or until further orders, whichever event takes place earlier.

H.R. JOSHI, Under Secy.

#### MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD & PUBLIC DISTRIBUTION

(DEPARTMENT OF CONSUMER AFFAIRS)

New Delhi, the 18th June 2004

F. No. A-11011/02/2004-Estt.—The President is pleased to appoint Shri Arvind Singh, IAS (MH : 88) as Private

Secretary to the Minister for Consumer Affairs, Food & Public Distribution (Shri Sharad Pawar) on co-terminus basis in the scale of pay of Rs. 14300-400-18300 (Director level) w.e.f. the forenoon of 26th May, 2004, for the balance period of his central tenure i.e. upto 1.4.2008 or till he ceases to function as Private Secretary to Minister or until further orders, whichever is earliest.

S. K. NAYAK, Under Secy.

The 29th June, 2004

F. No. A-12011/2/2004-Estt.—The President is pleased to appoint Shri B.D. Raibhole, a regular Market Surveillance Officer in the Forward Markets Commission, Mumbai on his adhoc promotion, vide office order No. 32014/1/2001-ADM-I dated 14-5-2004, as Assistant Director (ex cadre) in the scale of pay of Rs. 8000-275-13500 on purely adhoc basis in the Forward Markets Commission, Mumbai with effect from the forenoon of 1st June, 2004 for a period of one year or till the post is filled on regular basis, whichever is earlier.

2. The period of adhoc appointment would not confer upon him any right or claim for regular appointment, seniority etc. in the Grade of Assistant Director (ex cadre).

S. K. NAYAK, Under Secy.

#### MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

(DEPARTMENT OF SCIENCE AND TECHNOLOGY)

New Delhi-110016, the 29th June 2004

No. A-12023/1/03-Admn.I (A).—In continuation of this Department's Notification of even number dated 14th May, 2004, the President is pleased to extend the term of adhoc appointment of undermentioned permanent Grade 'C' Stenographers of the CSSS Cadre of the Ministry of Science and Technology as Private Secretaries in the scale of pay of Rs. 6500-200-10500 in the Department of Science and Technology upto 30.09.2004 or till regular select list officers join, whichever is earlier:—

1. Shri Anil Kathuria
2. Shri Ram Prakash
3. Smt. Krishna Mathur
4. Shri Brij Nath
5. Shri Jatinder Prabhakar

T. N. DWIVEDI, Under Secy.

New Delhi-110016, the 30th June 2004

No. A-19015/06/90-Admn.I (A).—The President is pleased to retire Shri T.K. Mandal, Scientist 'F' from the Government service on attaining the age of superannuation on 30th June, 2004 (AN).

K.S. NAPOLEAN, Director

## MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS

New Delhi-110003, the 01st June 2004

No. 32012/01/2003-IFS-I.—In exercise of the provisions contained in Sub-Regulation (3) of Regulation 7 of the Indian Forest Service (Appointment by Promotion) Regulations, 1966, a meeting of the Selection Committee for the year 2003 was held on 26.12.2003. The Union Public Service Commission has now approved the Select List prepared in the said meeting containing the name of the following member of the State Forest Service of Goa towards filling up of promotion vacancy available in Goa segment of Joint AGMUT Cadre as on 1st January 2003:—

1. Shri D.N.F. Carvalho, 01.12.1955

M.L. PARASHAR, US (IFS.I)

New Delhi, the 17th June 2004

No. 17013/1/2001-IFS.II.—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of Rule 8 of the Indian Forest Service (Recruitment) Rules, 1966, read with sub-regulation (1) of Regulation 9 of the Indian Forest Service (Appointment by Promotion) Regulations, 1966, the President is pleased to appoint Sh. K. Suryanarayana (Date of Birth 01.07.1958), officer of the State Forest Service of Andhra Pradesh, to the Indian Forest Service with immediate effect against existing vacancy and to allocate him to the Andhra Pradesh Cadre of the Indian Forest Service under sub-rule (1) of Rule 5 of the Indian Forest Service (Cadre) Rules, 1966.

ASHOK KUMAR, Under Secy.

New Delhi, the 21st June 2004

No. A-12021/1/2002-CPW(.).—On the basis of the recommendations of the Selection Committee which met on 11.3.2004, the President is pleased to appoint Dr. B. Sengupta, Director, Central Pollution Control Board holding additional charge of the post of Member-Secretary to the post of Member-Secretary, Central Pollution Control Board in the scale of Rs. 16400-450-20000 for a period of 3 years w.e.f. 17.6.2004 (FN) on deputation basis.

K.V. MATHEW, Under Secy.

## MINISTRY OF HEALTH &amp; FAMILY WELFARE

(DEPARTMENT OF HEALTH)

New Delhi, the 25th June 2004

No. A-12025/16/98-CHS.III.—On the recommendations of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Dr. Manoj Bharatlal Jais, an officer of the Specialist Grade II of the Teaching Sub-cadre of the Central Health Service on probation and to post him as Assistant Professor of Microbiology w.e.f. 10.05.1999

forenoon at Lady Hardinge Medical College, New Delhi until further orders.

Y. K. TALWAR, Dy Secy.

The 05th July 2004

## CORRIGENDUM

No. A-31013/1/2002-CHS-V.—In the Notification of even number dated 27th May, 2004 regarding substantive appointment of the Specialist Grade-II (Non-Teaching sub-cadre) of the Central Health Service, the following corrections be carried out:—

(i)

Sl. No.	Sl. No. in the Notification	Name of the officer as shown in the Notification	Actual Name of the officer to be shown
1.	24	Dr. Rachna Lal	Dr. Bachcha Lal
2.	62	Dr. (Ms.) R.D. Hasija	Dr. (Ms.) B.D. Hasija
3.	75	Dr. (Ms.) M.S. Parkale	Dr. (Ms) V.M. Parkale
4.	81	Dr. (Ms.) Renu Malik	Dr. (Ms.) Renuka Malik

(ii) This substantive appointments of Dr. (Ms.) Swati Devikar (Sl. No. 71 and Dr. S.M. Chakranarayanan (Sl. No. 181) are only provisional and subject to verification of their Caste Certificates.

Y.K. TALWAR, Dy. Secy.

New Delhi-110011, the 30th Jun 2004

No. A. 12025/42/97-CHS.I.—On the recommendations of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Dr. Dharmendra Gupta to the Medical Officers Grade of the Central Health Service in the scale of pay of Rs. 8000-275-13500 in a temporary capacity with effect from forenoon of the 1.1.2001 until further orders. Dr. Dharmendra Gupta is posted as Medical Officer under Government of National Capital Territory of Delhi.

JAGDISH KUMAR, Under Secy.

## MINISTRY OF AGRICULTURE

(DEPARTMENT OF AGRICULTURE &amp; COOPERATION)

New Delhi, the 28th June 2004

No. 19011/401/2004-EV.—The President is pleased to extend the deputation period of Shri Rajbir Singh in the post of Assistant Commissioner (Crops) in the pay scale of Rs. 10000-325-15200 in the Department of Agriculture & Cooperation for a period of three months beyond 1.6.2004 and upto 1.9.2004 or till appointment of a regular incumbent is made, whichever is earlier.

K.D. UPRETI, Under Secy.

MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT  
(DEPARTMENT OF SECONDARY & HIGHER  
EDUCATION)

New Delhi, the 26th April 2004

No. A. 32011/3/2004-E.I.—The President is pleased to appoint the following Section Officers (ad hoc)/Assistants of the Central Secretariat Service belonging to the cadre of the Ministry of Human Resource Development as Section Officers on ad-hoc basis with effect from 25th March, 2004:

Sl. No.	Name	Department
1	2	3
	S/Shri	
1.	D.D. Ranjan, SO (ad-hoc)	Education
2.	Satish Kumar, SO (ad-hoc)	Education
3.	Thomas George, SO (ad-hoc)	Education
4.	R.N. Mohanty, SO (ad-hoc)	Education
5.	Smt. Jitender Kaur, SO (ad-hoc)	Women and Child Development
6.	Kamal Jit Singh, SO (ad-hoc)	Women and Child Development
7.	S.D. Sharma, SO (ad-hoc)	Education
8.	M.M. Sexena, SO (ad-hoc)	Education
9.	G.K. Mukherjee, SO (ad-hoc)	Youth Affairs and Sports
10.	S. Vijay Gopal, SO (ad-hoc)	Education
11.	J.K. Jain, SO (ad-hoc)	Education
12.	S.K. Banerjee, SO (ad-hoc)	Archaeological Survey of India
13.	Suresh Sharan, SO (ad-hoc)	Women and Child Development
14.	Smt. Sundari Bansal, SO (ad-hoc)	Education
15.	A.K. Sood, SO (ad-hoc)	Education
16.	Surender Kumar, SO (ad-hoc)	Culture
17.	Om Prakash, SO (ad-hoc)	Culture
18.	L.K. Sharma, Assistant	Education
19.	Rajender Singh Yadav, Assistant	Youth Affairs and Sports
20.	Gulshan Kumar, Assistant	Education
21.	Sanjai Kumar Mishra, Assistant	Education
22.	Smt. Manju Dhingra, Assistant	Education
23.	Smt. Radha Narayanan, Assistant	Youth Affairs and Sports
24.	Ashok Kumar, Assistant	Youth Affairs and Sports
25.	Kamal Arora, Assistant	Education
26.	Ashok Mahesh, Assistant	Youth Affairs and Sports

1	2	3
27.	Parminder Singh, Assistant	Education
28.	Dharmu Nagar, Assistant	Education
29.	Narain Dass, Assistant	Education
30.	Yogesh Pratap Singh, Assistant	Education
31.	Gyanendra Kumar Kalra, Assistant	Archaeological Survey of India
32.	Prahlad Chand, Assistant	Women and Child Development
33.	S.L. Vohra, Assistant	Education
34.	Mahendar Kumar Khanna, Assistant	Women and Child Development
35.	Lachman Singh, Assistant	Women and Child Development
36.	S.K. Gupta, Assistant	Education
37.	K.N. Ahuja, Assistant	Women and Child Development
38.	Azizuddin, Assistant	Women and Child Development
39.	Kuncham Nagaraju, Assistant	Education
40.	B.D. Rai, Assistant	Education
41.	Arun Aggarwal, Assistant	Education
42.	R.K. Goyal, Assistant	Youth Affairs and Sports
43.	P. Bhattacharya, Assistant	Youth Affairs and Sports
44.	Smt. Neelam Ramdey, Assistant	Youth Affairs and Sports
45.	Yoginder Singh, Assistant	Education
46.	B.S. Kakkar, Assistant	Youth Affairs and Sports
47.	Sudesh Kumar Panwar, Assistant	Education
48.	K.K. Paul, Assistant	Youth Affairs and Sports
49.	Chirabrata Sarkar, Assistant	Education
50.	B.K. Bandyopadhyay, Assistant	Youth Affairs and Sports
51.	D.S.S. Uikey, Assistant	Education
52.	R.A.S. Kushwaha, Assistant	Education
53.	N. Khamchin Thang, Assistant	Education
54.	C.J. Narendranathan Nair, Assistant	Education
55.	Smt. Swaranlata Mehta, Assistant	Education
56.	Champat Singh, Assistant	Youth Affairs and Sports

2. The above appointments are purely on ad-hoc basis and shall not confer any right to continue in the grade indefinitely or for inclusion in the Select List for regular appointment or to claim seniority in the Section Officer's Grade.

B.M. SADDI, Under Secy.



The 11th May 2004

No. F. 15-1925/99.E-I.—In pursuance of Sub-section 10 of the Copyright Act, 1957 (4 of 1957), the Central Government hereby appoints Smt. Sumita Singh, Section Officer in this Ministry as Deputy Registrar of Copyrights vice Shri S.D. Sharma, Section Officer with immediate effect.

B.M. SADDI, Under Secy.

The 4th June 2004

No. A. 44011/12/2003-E.I.—Consequent upon inclusion of their names in the Select List of Section Officers for the year 2001 against Seniority Quota, the President is pleased to appoint Shri D.D. Ranjan and Shri D.S. Uikey, permanent Grade IV Officers (Assistants) of the CSS cadre as Section Officers in the officiating capacity in the CSS cadre of the Ministry of Human Resource Development (Department of Secondary & Higher Education) with effect from 02.06.2004.

B.M. SADDI, Under Secy.

(DEPARTMENT OF WOMEN AND CHILD  
DEVELOPMENT)

New Delhi, the 23rd June 2004

No. 2-3/2004-Admn.—The President is pleased to appoint Dr. Tejpal Singh, IC&CES(90) as Private Secretary (at the level of Deputy Secretary upto 30.6.2004 and at the level of Director from 1.7.2004) to Smt. Kanti Singh, Minister of State (Human Resource Development—Women and Child Development), with effect from the date of taking over charge of the post, i.e., 18.6.2004, for the balance period of his tenure of five years as admissible to Private Secretaries to Ministers, i.e., upto 27.01.2007 or till he ceases to function as PS to the Minister or until further orders, whichever event occurs the earliest.

R.S. SHRAMA, Under Secy.

MINISTRY OF COMMUNICATIONS AND  
INFORMATION TECHNOLOGY

(DEPARTMENT OF INFORMATION TECHNOLOGY)

NATIONAL INFORMATICS CENTRE

New Delhi-110003, the 29th June 2004

No. A-39013/1/2004-Admn.I.—Consequent upon her Selection as Senior Programmer in the pay scale of Rs. 12000-420-18300/- in Indian Institute of Technology, New Delhi, the President is pleased to accept the resignation of Smt. Jaya, Emp-Code-3761, from the post of Scientist 'D', National Informatics Centre, New Delhi from the afternoon of 29th June 2004. She is relieved for her duties from the same day to enable her to join IIT, New Delhi.

P. S. PILLAI, Dy. Director (Admn.)

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT & HIGHWAYS

New Delhi, the 24th June 2004

No. A-32011/2/2003-Estt.(Pt.).—The President is pleased to appoint Shri C.K. Bhardwaj in the Ministry of Road Transport & Highways as Chief Draughtsman (Group 'B') Gazetted on regular basis in the Headquarters' Office, New Delhi in the pay scale of Rs. 6500-200-10,5000 w.e.f. 21st June, 2004 (FN).

A.P. PADHI, Under Secy.

The 25th June 2004

No. A-12025/2/2003-EII.—The President is pleased to appoint Shri Abhilash Kumar as Assistant Executive Engineer (Civil) in the Ministry of Road Transport & Highways, New Delhi in the pay scale of Rs. 8000-275-13,500/- w.e.f. 23.06.2004 (FN) and until further orders.

A.P. PADHI, Under Secy.

New Delhi, the 5th July 2004

No. A-19011/807/2000-E-I.—On attaining the age of superannuation, Shri U.S. Tiwari, Deputy Secretary in the Ministry of Road Transport & Highways has retired from Government Service w.e.f. 30.6.2004

DR. N.C. KAUSHIK, Under Secy.

MINISTRY OF POWER

New Delhi, the 5th July 2004

No. 16/2004. F. No. A-32013/1/2003-Admn.—On the recommendation of the Departmental Promotion Committee, the President is pleased to appoint the following officers of the grade of Assistant Director (Grade-I)/Assistant Executive Engineer of the Central Power Engineering (Group A) Service, to the grade of Deputy Director/Executive Engineer in the scale of pay of Rs. 3000-4500 (Pre-revised) of the same Service in the Central Electricity Authority with effect from the dates mentioned against each until further orders:

Sl. No.	Name	Date of appointment
1	2	3
	S/Shri	
1.	M.S. Kaushika	31.07.2003 (Forenoon)
2.	S.M.A. Usmani	31.07.2003 (Foerenoont)
3.	D.V. Lakshminpathy	31.07.2003 (Forenoon)
4.	Rohatash Singh	31.07.2003 (Foerenoont)
5.	R.D. Pandare	31.07.2003 (Foerenoont)
6.	Kuldeep Singh-I	31.07.2003 (Foerenoont)
7.	M.M. Dhakade	31.07.2003 (Foerenoont)

1	2	3
8.	Amit Ghosh	29.10.2003 (Forenoon)
9.	Surinder Prasad	31.07.2003 (Forenoon)
10.	Arun Puranik	25.08.2003 (Forenoon)
11.	H.L. Khurana	31.07.2003 (Forenoon)
12.	Chandan Roy	31.07.2003 (Forenoon)
13.	Hardayal Singh-I	31.07.2003 (Forenoon)
14.	S.K. Vij	17.10.2003 (Forenoon)
15.	S.C. Das	17.10.2003 (Forenoon)
16.	Rajinder Kumar	17.10.2003 (Forenoon)
17.	S.N. Sarkar	21.01.2004 (Forenoon)
18.	Prabhu Dayal	17.10.2003 (Forenoon)
19.	G.S. Das	17.10.2003 (Forenoon)
20.	Balbir Singh-I	17.10.2003 (Forenoon)

2. The above appointments will be subject to the outcome of the Writ Petition No. 1230 of 1999—Union of India and Another Vs. A.K. Singhal & Others; and Writ Petition No. 3362 of 1999—Sanjay Sharma & Others Vs. Union of India & Others, pending in the High Court of Delhi.

V.C. KAJLA, Under Secy.

No. 17/2004. F. No. A-32013/1/2003-Adm.I.—On the recommendation of the Departmental Promotion Committee and on his reversion from ex-cadre post abroad, the President is pleased to appoint Shri S.S. Bains, an officer of the grade of Assistant Director (Grade-I)/Assistant Executive Engineer of the Central Power Engineering (Group A) Service, to the grade of Deputy Director/Executive Engineer in the scale of pay of Rs. 3000-4500 (Pre-revised) of the same Service in the Central Electricity Authority notionally with effect from the forenoon of 17.10.2003 and actually with effect from the forenoon of 23.04.2003.

2. The promotion of Shri S.S. Bains will be subject to the outcome of the Writ Petition No. 1230 of 1999—Union of India and Another Vs. A.K. Singhal & Others; and Writ Petition No. 3362 of 1999—Sanjay Sharma & Others Vs. Union of India & Others, pending in the High Court of Delhi.

V. C. KAJLA, Under Secy.

#### MINISTRY OF WATER RESOURCES

New Delhi, the 2nd July 2004

No. 10/2004/F. No. 25/2(15)/2002-E.I.—On the results of the Engineering Services Examination, 2002, the President

is pleased to appoint Shri Milind Arjun Panpatil to officiate as Assistant Director/Assistant Executive Engineer (Civil) of the Central Water Engineering (Group-A) Service in the scale of Rs. 8000-13500/- in the Central Water Commission w.e.f. 2.04.2004 (FN).

2. Shri Milind Arjun Panpatil will be on probation for a period of two years with effect from the date of joining, which may be extended, if considered.

HARDAYAL SINGH, Under Secy.

No. 11/2004 F.No. 25/2(2)/2003-E.I.—On the results of the Engineering Services Examination, 2002, the President is pleased to appoint Shri Pardeep Kumar Thakur to officiate as Assistant Director/Assistant Executive Engineer (Civil) of the Central Water Engineering (Group-A) Service in the scale of Rs. 8000-13500/- in the Central Water Commission w.e.f. 1.04.2004 (FN).

2. Shri Pardeep Kumar Thakur will be on probation for a period of two years with effect from the date of joining, which may be extended, if considered.

HARDAYAL SINGH, Under Secy.

No. 12/2004/F. No. 25/2(13)/2002-E.I.—On the results of the Engineering Services Examination, 2002, the President is pleased to appoint Shri Ajay Singh to officiate as Assistant Director/Assistant Executive Engineer (Civil) of the Central Water Engineering (Group-A) Service in the scale of Rs. 8000-13500/- in the Central Water Commission w.e.f. 29.04.2004 (FN).

2. Shri Ajay Singh will be on probation for a period of two years with effect from the date of joining, which may be extended, if considered.

HARDAYAL SINGH, Under Secy.

#### DEPARTMENT OF OCEAN DEVELOPMENT

New Delhi-110003, the 30th June 2004

No. DOD/11/2/2001-Estt.—The President of India is pleased to grant extension in service to Dr. Harsh K. Gupta, Secretary, Department of Ocean Development, for a period of one year beyond the age of 62 years i.e. upto 30.06.2005.

RAKESH KUMAR, Dy. Secy.

#### MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING

New Delhi, the 28th June 2004

No. 1/15/2000-MUC.—In continuation Ministry's notification of even number dated 22.12.2003, the President is pleased to extend the deputation period of Shri S.V. Menon, a Senior Grade 'A' Officer of Indian Information Service as Joint Director (Advertising) (Scale : Rs. 12,000-375-16,500/-) in the Directorate of Advertising and Visual Publicity (DAVP), Ministry of Information and Broadcasting, New Delhi, for a further period of three months beyond 07.06.2004, (or) until further orders, whichever is earlier.

S. KUMARA SWAMY, Dy. Secy.

प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद द्वारा मुद्रित एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 2004।

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2004.